



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 23—मार्च 29, 2013 (चैत्र 2, 1935)

No. 12]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23—MARCH 29, 2013 (CHAITRA 2, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 4 मार्च 2013

नई दिल्ली-110069, दिनांक 4 मार्च 2013

सं. ए-32011/1/2010-प्रशा. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.02.2013 के का.ज्ञा. सं. 27/38/2012-ई ओ(एस.एम. I) के तहत मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री राकेश कुमार गुप्ता भा. प्रशा. से. (जे.के. 86), अपर सचिव (संयुक्त सचिव स्तर के), संघ लोक सेवा आयोग की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि के विस्तार को दिनांक 15.02.2013 से आगामी तीन माह की अवधि के लिए अनुमोदन को संसूचित किया है।

2. तदनुसार, श्री राकेश कुमार गुप्ता भा. प्रशा. से. (जे.के. 86), अपर सचिव (संयुक्त सचिव स्तर के) संघ लोक सेवा आयोग की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को दिनांक 15.02.2013 से 15.05.2013 तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

राजीव श्रीवास्तव  
संयुक्त सचिव (प्रशा.)

सं. ए-60011/03/2013-सू.अधि. अधिनियम प्रकोष्ठ (प्रशा.)--  
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) की शर्तों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के श्री एस.पी. सिंह, उप सचिव (अ.भा.से.) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई विशिष्ट विषय वस्तु के संबंध में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है, जो निम्नानुसार है :--

नाम	विषय-वस्तु	अपीलीय प्राधिकारी
श्री एस.पी. सिंह उप सचिव (अ.भा.से.)	संवर्ग आवंटन के संबंध में राज्य सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल किए जाने से संबंधित आरटीआई के सभी मामले।	श्री शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव (अ.भा.से.)

नीरज सचदेवा  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 8 मार्च 2013

सं. ए-35014/03/2011-प्रशासन-2--संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के अनुसरण में सचिव, सं. लो. से. आ. एतद् द्वारा आयोग कार्यालय में कार्यरत श्रीमती उमा श्रीनिवासन, स्वागती को नियमित प्रोन्नति के आधार पर पी.बी.-2 (रु. 9,300--34,800/-) एवं ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में दिनांक 07.03.2013 से स्वागत अधिकारी (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख', राजपत्रित, अन-अनुसचिवीय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीरज सचदेवा  
अवर सचिव (प्रशा.)

प्रवर्तन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 मार्च 2013

सं. ए-4/15/2010--प्रवर्तन निदेशक, एतद्द्वारा, निम्नलिखित केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क/आय-कर निरीक्षकों/पुलिस पदाधिकारियों को वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में उनके नामों के आगे दर्शाई गई तारीखों से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति आधार पर प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	नाम	तैनाती की तारीख
(सर्वश्री)		
1.	मुकेश कुमार	11.01.2013
2.	रोनोदेव बासु	01.02.2013
3.	अजीत कुमार श्रीवास्तव	04.02.2013
4.	अमोल श्रवण वाघमरे	05.02.2013 (अपरा.)

एम. जी. अत्री  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 मार्च 2013

सं.-पी. सात-1/2013-मंत्रा.--सूबेदार मेजर (स्टेनो) से सहायक कमाण्डेन्ट (निजी सचिव) के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप श्री ऋषिकेश मीणा (इरला-9323) ने दिनांक 11.02.2013 (पूर्वाह्न) को महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली में सहायक कमाण्डेन्ट (निजी सचिव) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सतपाल कपूर  
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

महानिदेशालय,

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. ई-28017/1/अधि./2009/कार्मिक. 11/362--केऔसुब के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर केऔसुब इकाई/मुख्यालय से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र.सं.	नाम	पद	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि	इकाई का नाम
1	2	3	4	5
(सर्वश्री/श्रीमती)				
1.	हरमीत सिंह खन्ना	स.क.	01.04.2009(पू.)	डीएसपी, दुर्गापुर
2.	सलील कुमार विश्वास	उ.क.	01.05.2009(पू.)	एफबीपी, फरक्का
3.	बी.एस. कोलाज	उ.क.	01.06.2009(पू.)	8वी आ.बा., जयपुर
4.	रामपाल सिंह	स.क.	01.03.2010(पू.)	बीआईएम, तेनसा
5.	तपन देबनाथ	उ.क./	01.05.2010(पू.)	ओटीएचपीपी, ओबरा
6.	जे.के. घोष	स.क.	04.05.2010(पू.)	3वी आ.वा., भिलाई
7.	आर.सी. हांडू	कमा.	05.07.2010(पू.)	ओएनजीसी, जोरहाट
8.	जी.सी. बिलारवन	कमा.	01.08.2010(पू.)	7वी आवा, किशतवाड
9.	जी.सी. चट्टोपाध्याय	उ.क.	01.08.2010(पू.)	एसएसजी, नोएडा
10.	सी.जी. शर्मा	वरि. कमा.	01.08.2010(पू.)	प्र.आ.वा., बडवाह
11.	के. चन्द्र कुमार	कमा.	01.09.2010(पू.)	एनटीपीसी, दादरी
12.	धर्मवीर यादव	उ.क.	01.10.2010(पू.)	आरटीसी, बहरोड
13.	एम.एस. इवाते	उ.क.	01.11.2010(पू.)	बीसीसीएल, धनबाद
14.	बी.एस. जामवाल	उ.क.	01.11.2010(पू.)	एसजी, वाराणसी
15.	पी.एस. सुहाग	स.क./फा.	01.03.2011(पू.)	एचटीपीपी, कासिमपुर
16.	पी.के. बासू	स.क./फा.	01.04.2011(पू.)	एसएमपीएल, राजकोट
17.	डा. अलकानंदा दास	वरि. कमा.	01.06.2011(पू.)	निसा, हैदराबाद
18.	के.एन. माथुर	स.क./फा.	02.07.2011(पू.)	वीएसपी, विजाग
19.	आर. शिवराम	उ.क.	03.07.2011(पू.)	द्वि.आ.वा., रांची
20.	पी.एस.बी. नायर	वरि. कमा.	05.07.2011(पू.)	4वी एनडीआरएफ, आर.
21.	वी.के. अरोडा	उ.क.	01.08.2011(पू.)	बीडब्ल्यूएस, भिलाई
22.	ऋषिदेव राय	उ.क.	01.08.2011(पू.)	एनएफएल, पानीपत
23.	विलियम थामस	स.क.	01.08.2011(पू.)	एसएचईपी, सलाल
24.	जी.के. कुच्चल	सक/जेएओ	01.09.2011(पू.)	एपी यू वउपू, कोलकाता

1	2	3	4	5
25.	एम.वाई. खान	सक/जेएओ	25.10.2011(पू.)	उपक्षे मु., कोलकाता
26.	एन.के. महाराज	स.क.	19.10.2011(पू.)	आईएसपी, नासिक
27.	जे.एन. रामपाल	उ.क.	01.10.2011(पू.)	एचईसी, रांची
28.	के.के. दास	सक/जेएओ	01.11.2011(पू.)	बल मुख्यालय
29.	आर.पी. मिश्रा	वरि. कमा.	01.11.2011(पू.)	आरएपीएस, कोटा
30.	के.टी. महेश्वर	उ.क.	01.12.2011(पू.)	एसएसजी, नोएडा
31.	पी. प्रभाकरन	उ.क.	01.01.2012(पू.)	एसएसजी, नोएडा
32.	कुलदीप यादव	स.क./फा.	01.01.2012(पू.)	डीटीपीएस, दुर्गापुर
33.	एस.एस. संघू	स.क.	16.01.2012(पू.)	एनएफसी, हैदराबाद
34.	बी.के. पारीक	स.क./फा.	01.04.2012(पू.)	एसएमपीएल, राजकोट
35.	एस. सरकार	उ.म.नि.	31.05.2012(पू.)	बीसीसीएल, धनबाद
36.	पी.के. पंडा	कमा.	01.07.2012(पू.)	समूह मु., हैदराबाद
37.	त्रिलोक सिंह	स.क./फा.	01.08.2012(पू.)	एनटीपीसी, सिमदरी
38.	पवन कुमार	स.क.	30.10.2012(पू.)	4वीं आ वा, जयपुर
39.	पी.के. मूर्ती	उ.क.	01.10.2012(पू.)	डीएसपी, दुर्गापुर
40.	नरेन्द्र कुमार यादव	कमा.	01.10.2012(पू.)	7वीं आवा, किरतवाड
41.	बी.आर. राय	कमा.	01.10.2012(पू.)	उसे मु., नई दिल्ली
42.	पी. पाल थुराई	उ.क.	01.11.2012(पू.)	निसा, हैदराबाद
43.	एम.एल. ठाकुर	उ.क.	01.11.2012(पू.)	एनएसपीसीएल, भिलाई
44.	रामा ओरान	स.क.	01.11.2012(पू.)	9वीं आ.वा., देवली
45.	यू.पी. श्रीवास्तव	सक/जेएओ	01.12.2012(पू.)	वीएसपी, विजाग
46.	विजय लक्ष्मी	सनि/राभा	19.11.2012(पू.)	बल मुख्यालय
47.	जे.एन. दास	सक/जेएओ	01.01.2013(पू.)	समूह मु., चण्डीगढ़

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केऔसुब

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 फरवरी 2013

सं. ई-16013/(1)/1/उ.म.नि. प्रतिनियुक्ति/07/कार्मिक-1/87--  
राष्ट्रपति, डॉ. के. जयंत मुरली, भा.पु.से. (त. न. : 1991) को दिनांक  
11.02.2013 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महानिरीक्षक  
पद पर वेतन बैंड-4 रु. 37,400--67,000/- + रु. 10,000/- ग्रेड  
वेतन में नियुक्त करते हैं।

अधिकारी द्वारा दिनांक 11.02.2013 (पूर्वाह्न) से केऔसुब द.खण्ड  
मुख्यालय, चैन्नई में महानिरीक्षक पद का पदभार ग्रहण की लिया गया  
है।

शिखा गोयल  
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

### भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल  
कोलकाता-700001, दिनांक 1 मार्च 2013

सं. डब्ल्यू.एम. I/क्यू-55(जी)खण्ड/3363--3365--महालेखाकार  
(लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित  
प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I को इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ प्रभागीय  
लेखा अधिकारी के रूप में वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- एवं  
ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ  
प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक  
01.03.2013 (अपराह्न) के प्रभाव से वर्तमान डिविजन/प्रत्येक के नाम  
के समक्ष लिखित डिविजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी  
गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा  
में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

श्री निर्मल कुमार पहाड़ी

उपरोक्त अधिकारी को प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु  
वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के  
दिनांक से एक माह के अंदर एफ.आर. 22(I)(क) (1) के तहत  
अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

(प्राधिकार : म.ले. का आदेश दिनांक 28.02.2013)

वानलालडुआंगा

वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं वी.एल.सी.)

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का  
कार्यालय ओड़िशा

भुवनेश्वर, दिनांक 7 मार्च 2013

सं. प्रशा.(सा.सा.क्षे.ले)-17-2(लेपअ)भाग-VII/101--ज्ञापन सं.  
प्रशा. (सा.सा.क्षे.ले)/17-2(लेपअ)/भाग-VII/3510 दिनांक 28.02.  
2013 द्वारा सूचित का.आ.ग. 1366 दिनांक 28.02.2013 के अनुपालन  
में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति होने पर  
उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तिथि से वेतन बैंड-2  
(रु. 9,300--34,800/-) एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु. 5,400/- पर  
लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है :-

क्र. सं.	नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री अनिल कुमार पण्डा	01.03.2013 पूर्वाह्न
2.	श्री अबकाश खटुआ	01.03.2013 पूर्वाह्न
3.	श्री अशोक कुमार सेन	04.03.2013 पूर्वाह्न

दीपक महान्ति  
लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा. (सा.सा.ले.प.)

## कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

दिल्ली छावनी-110010, दिनांक 11 फरवरी 2013

सं. प्रशा./XI/12305/निजी सचिव/राजपत्र अधिसूचना--रक्षा लेखा विभाग के सक्षम प्राधिकारी प्रधान लेखा नियंत्रक (फैक्ट्री), रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशासन) एतद्वारा उपाबंध में दिए गए निम्नलिखित व्यक्तियों को अनुलग्नक 'क' में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से आगामी आदेश पर्यंत निजी सचिव (समूह-ख) के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. के. राय

र. ले. व. सहायक महानियंत्रक (प्रशा.)

अनुलग्नक 'क'

क्र. सं.	नाम	निजी सचिव के रूप में पदोन्नति की तिथि	संगठन
1	2	3	4
(सर्वश्री/श्रीमती)			
1.	जावेद अहमद	24.10.2008	फैक्ट्री
2.	उषा जी. धोबले	24.10.2008	देहरादून
3.	शीला बनर्जी	24.10.2008	फैक्ट्री
4.	पी. वी. मुले	24.10.2008	एन ए डी एफ एम
5.	बी. आर. रॉय चौधरी	24.10.2008	गोहाटी
6.	मृदुला गुप्ता	24.10.2008	देहरादून
7.	परमकुशा सूरदा	29.10.2008	मुम्बई
8.	एस. मेरी पमाला	24.10.2008	फैक्ट्री
9.	पबित्रा चौधरी	24.10.2008	इलाहाबाद
10.	जेकोब मैथ्यू	24.10.2008	फैक्ट्री
11.	कृष्णा नाथ	24.10.2008	एन ए डी एफ एम
12.	एस. भारद्वाज	24.10.2008	बैंगलोर
13.	तृप्ता सबरवाल	24.10.2008	नई दिल्ली
14.	सुब्रतो बिश्वास	24.10.2008	अनु. एवं वि., नई दिल्ली
15.	चिना घोष	24.10.2008	फैक्ट्री
16.	ए. सुरेन्द्रन	24.10.2008	बैंगलोर
17.	एम. गोथा	24.10.2008	अनु. एवं वि., बैंगलोर

1	2	3	4
18.	वी. डी. कन्नन	24.10.2008	महानियंत्रक
19.	सविता सुशील	24.10.2008	मध्य कमान
20.	सुभद्रा राजगोपाल	23.10.2009	चेन्नई
21.	एस. एस. कुलकर्णी	15.02.2010	द. कमान
22.	शीला श्रीगारे	15.02.2010	सी एस डी, मुम्बई
23.	उमेश गर्ग	15.02.2010	मध्य कमान
24.	अंजना दिवेदी	15.02.2010	मध्य कमान
25.	नरेंद्र कुमार शर्मा	15.02.2010	निधि
26.	ओम प्रकाश	15.02.2010	महानियंत्रक
27.	उमा बडोला	15.02.2010	महानियंत्रक
28.	सुशान थोमस	17.05.2012	सीमा संगठन
29.	सीमा शर्मा	17.05.2012	निधि
30.	आर. नारायण	12.06.2012	बैंगलोर
31.	शिरले रेक्स	18.05.2012	फैक्ट्री
32.	बी. के. एन. नरसप्पा	17.05.2012	अफसर
33.	च. हनुमंथा राव	18.06.2012	सिकंदराबाद
34.	वी. मधुसूदन	01.08.2012	बैंगलोर
35.	सुमन कुमारी	29.06.2012	सी एस डी, मुम्बई
36.	नीतू बालासुब्रमण्यन	17.05.2012	फैक्ट्री
37.	जसवंत कौर	18.05.2012	महानियंत्रक
38.	बबीता सचदेवा	17.05.2012	सीमा संगठन
39.	कंचन सीकरी	18.05.2012	महानियंत्रक
40.	जयाश्री वी.	17.05.2012	चेन्नई
41.	लक्ष्मी नारायण	18.05.2012	महानियंत्रक
42.	बिंदु सी. पी.	18.05.2012	वायु सेना, नई दिल्ली

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 1 मार्च 2013

सं. 1593/एसपी/ए-32013/3-रसायनज्ञ(कनिष्ठ)/98/19बी--  
राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित

सहायक रसायनज्ञों श्रेणी-I को रसायनज्ञ के पद पर पदोन्नति पर इसी विभाग में 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 : रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान में प्रत्येक के नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	रसायनज्ञ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री प्रदीप कुमार बंधोपाध्याय	03.04.2012 (पूर्वाह)
2.	श्री पी. प्रेमकुमार	16.04.2011 (अपराह)
3.	श्री अमित शंकर बोराह	03.04.2012 (पूर्वाह)
4.	श्री आनंद सिंह रावत	03.04.2012 (पूर्वाह)
5.	श्री एम. रजनीकांत राव	03.04.2012 (पूर्वाह)
6.	श्री गौरांग बनर्जी	03.04.2012 (अपराह)
7.	श्री शेर सिंह	03.04.2012 (पूर्वाह)
8.	श्री जवाहर लाल	03.04.2012 (पूर्वाह)
9.	श्री एच. बी. बाधेला	03.04.2012 (अपराह)
10.	श्री सी. डी. मिश्रा	03.04.2012 (पूर्वाह)
11.	श्री पी. डी. बैरवा	03.04.2012 (पूर्वाह)
12.	श्री एस. सी. प्रसाद	03.04.2012 (अपराह)
13.	श्री दीपक सरकार	03.04.2012 (पूर्वाह)
14.	श्री एम. एस. डाहट	03.04.2012 (अपराह)
15.	श्रीमती तुलसी धर्म शक्ती	03.04.2012 (पूर्वाह)

सुभाष चंद्र बोस  
प्रशासन अधिकारी श्रेणी-II  
कृते महानिदेशक

कोलकाता-700016, दिनांक 6 मार्च 2013

सं. 1660/एसपी/ए-32013/5-निदे.(यांत्रिकी इंजीनियरी) (चयन श्रेणी)/2006/19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित निदेशक(यांत्रिक इंजीनियरी), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को इसी विभाग में निदेशक (यांत्रिक इंजीनियरी) (अ.का.च.श्रे.) के रूप में रुपये 8,700/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-4 : रु. 37,400--67,000/- के वेतनमान में नीचे दर्शाई गई तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	निदेशक (यांत्रिक इंजीनियरी) (अ.का.च.श्रे.) प्रभावी
श्री के. एन. सिन्हा	भा. भू. स., मध्य क्षेत्र, नागपुर	01.11.2012

निदेशक (यांत्रिकी इंजीनियर) (अ.का.च.श्रे.) के पद पर उनका वेतन नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा। तथापि अधिकारी मूलभूत fu; e&2214(a)(2) के अंतर्गत अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।

चयन श्रेणी में नियुक्ति के परिणामस्वरूप निदेशक (यांत्रिक इंजीनियरी) की श्रेणी में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता परिवर्तित नहीं होगी।

वाई. पी. रावत  
क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

सं. 1661/एसपी/ए-32013/5-निदे.(यांत्रिकी इंजीनियरी)/2008-11/19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भा. भू. स. निम्नलिखित यांत्रिकी इंजीनियर (वरिष्ठ) को इसी विभाग में निदेशक (यांत्रिकी इंजीनियरी) के रूप में पदोन्नति पर रुपये 7,600/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 : रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं। तथापि, उन्हें 01.04.2013 से लोकहित में भा. भू. स., पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग में तैनात किया जाता है :--

नाम	निदेशक (यांत्रिकी इंजीनियर) के पद पर पदोन्नति की तिथि
श्री पावकी वराप्रसाद	06.12.2012 (पूर्वाह)

निदेशक (यांत्रिकी इंजीनियर) के पद पर उनका वेतन मूलभूत नियम-22(I)(a)(1) के अंतर्गत नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा। वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।

वाई. पी. रावत  
क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

दिनांक 11 मार्च 2013

सं. 1773/एसपी/ए-32013/2-भूभौतिकीविद्/(कनिष्ठ) (उपकरण)/2008/19बी--राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में निम्नलिखित सहायक भूभौतिकीविदों (उपकरण) श्रेणी-I, को भूभौतिकीविद् (कनिष्ठ) (उपकरण) के पद पर पदोन्नति पर 5,400/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3, : (रु. 15,600--39,100/-) के वेतनमान में नियमित आधार पर प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित तिथि से नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	भूभौतिकीविद् (कनिष्ठ) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3
1.	श्री सुजीत कुमार रॉय	04.09.2012 (अपराह)
2.	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	29.10.2012 (अपराह)

1	2	3
3.	श्री शशि पाल सिंह	29.10.2012 (अपराह)
4.	श्री राजीव रंजन	04.09.2012 (अपराह)
5.	श्रीमती सारालिन खोंगवार	04.09.2012 (अपराह)

वाई. पी. रावत  
क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. 4-367/2012/स्था.--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली-110001 के का. आ. सं. 12016/3/2009-एस.एस.एस. दिनांक 29.03.2010 एवं रा. प. सर्वे. सं. देहरादून द्वारा जारी पत्र सं. 2(9)स्था/देहरा./उत्तर/2010-11 दिनांक 19.04.2010 के अनुशंसा पर निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, सहर्ष श्री कुमेर सिंह कठैत को सांख्यिकी पर्यवेक्षक ग्रेड-I ग्रुप-बी (राजपत्रित) पे बैंड पीबी-2 9,300--34,800/- (संशोधित) ग्रेड पे रुपये 4,600/- के पद पर तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर सर्वेक्षण के उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय केन्द्र देहरादून में पूर्वाह्न 26 अप्रैल, 2010 से तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

डी. एन. पाण्डेय  
कार्यालय अध्यक्ष

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. ए.-19024/1/2013-प्र.-I--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री सत्य प्रकाश शर्मा गौर, वरिष्ठ रसायनज्ञ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नई दिल्ली दिनांक 31 जनवरी, 2013 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम. एल. सिक्का  
अवर सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 13 फरवरी 2013

संदर्भ: पीडी/7(6)/2012/भर्ती-IV/एसओ/सी/ईटीजी/2070--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के श्रीमती जयसुधा प्रभु, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एसबी पे बैंड रुपये 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रुपये 4,800/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड सी के पद पर पे बैंड रुपये 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रुपये 5,400/- के वेतनमान

में, 1 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप में इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

माधवी एस.  
उप स्थापना अधिकारी

मुंबई, दिनांक 20 फरवरी 2013

संदर्भ: पीडी/4(6)/2007-भर्ती-III/2013/2465--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री जॉन मारिआ इरुदयास्वामी, आशुलिपिक श्रेणी-I को 13.12.2012 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ: पीडी/4(6)/2007-भर्ती-III/2013/2466--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती अनीता मुरुगन, आशुलिपिक श्रेणी-I को 14.12.2012 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 28 फरवरी 2013

संदर्भ: पीडी/7(9)/2013/भर्ती-IV/(डीएस)/टी-99--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित विशिष्ट वैज्ञानिक अधिकारियों उच्चतर प्रशासकीय श्रेणी वेतनमान रुपये 67,000--79,000/- को अतिविशिष्ट वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर उच्चतर प्रशासकीय श्रेणी + वेतनमान रुपये 75,500--80,000/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में 20 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम
1	2
1.	डॉ. भगवंतराव नरसिंगराव जगताप
2.	डॉ. प्रदीप कुमार तिवारी
3.	डॉ. अशोक कुमार दास
4.	डॉ. पल्लिप्पाटु कृष्णन विजयन
5.	श्री सत्यव्रत सरकार
6.	श्री कमलेश नीलकंठ व्यास

1	2
7.	श्री रामचरन शर्मा
8.	डॉ. राम कुमार सिंह
9.	डॉ. शिव कुमार गुप्ता

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ: पीडी/7(10)/2013/भर्ती-IV/(ओएस)/टी-12--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड 'एच' पे बैंड रुपये 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रुपये 10,000/- को विशिष्ट वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर उच्चतर प्रशासकीय श्रेणी वेतनमान रुपये 67,000--79,000/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में 20 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से, श्री अश्वत नारायण रामाराव, क्रम संख्या 19 जिनकी नियुक्ति तिथि 24 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से है को छोड़कर, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम
1	2

1. श्री मोहम्मद अफज़ल
2. श्री अब्दुल्ला के. के.
3. डॉ. नब किशोर साहू
4. डॉ. अरूणाचलम जेयरामन
5. डॉ. (श्रीमती) श्यामला राजकुमार भारद्वाज
6. श्री बेंगलोर शिवशंकर जगदीश
7. श्री संजय कुमार परूलकर
8. श्री रामवर्मराजा मातूर सुरेश बाबू
9. श्री देवाशीष दास
10. श्री कल्याण बेंनर्जी
11. डॉ. किरण बलवन्तराव ठाकूर
12. डॉ. मनमोहन सिंह भाटिया
13. श्री प्रमोद वी. भागवत
14. डॉ. अमर सिन्हा
15. श्री हृषीकेश मिश्र
16. डॉ. अमिताभ रॉय
17. श्री विजयकुमार केशव सावरकर

1	2
18.	श्री रूद्रराजु पांडुरंग राजु
19.	श्री अश्वत नारायण रामाराव
20.	श्री बॉबी सूर्यनारायण वेदुला गुरुमूर्ती शर्मा
21.	श्री जोमोन वट्टुकुन्नेल
22.	डॉ. दीपक कुमार पालित
23.	श्री अनिल भटनागर
24.	डॉ. संजय चंद्रकांत गडकरी
25.	डॉ. (श्रीमती) सा. बी. राय

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ: पीडी/7(11)/2013/भर्ती-IV/(एसओ/एच)/टी-13--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड 'जी' पे बैंड रुपये 37,000--67,000/- + ग्रेड पे रुपये 8,900/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'एच' के पद पर पे बैंड रुपये 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रुपये 10,000/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में उनके नाम के आगे उल्लेखित कालम संख्या 3 में दर्शाये गये तिथि के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति तिथि
1	2	3
1.	श्री कांकरापरथी श्रीनिवास	20.12.2012
2.	श्री राजीव नरसिम्हन	20.12.2012
3.	श्री राज भूषण भट्ट	20.12.2012
4.	श्री कामेस्वरन आर.	20.12.2012
5.	डॉ. राकेश वर्मा	20.12.2012
6.	डॉ. रबीन्द्र कुमार राउत	20.12.2012
7.	श्रीमती कविता पी. दिक्षीत	20.12.2012
8.	श्री सत्यनारायण आचार्य	20.12.2012
9.	डॉ. एम. वी. सूर्यनारायण	20.12.2012
10.	श्री दोंडापाटि सुधाकरा राव	20.12.2012
11.	श्री कमल नारायण कर्ण	20.12.2012
12.	डॉ. अरविंद कुमार त्रिपाठी	20.12.2012
13.	श्री कल्माडि राजेश	20.12.2012
14.	डॉ. स.च.ए.वे.स.स. राव	20.12.2012

1	2	3	1	2	3
15.	श्री मनोज कुमार सिंह	20.12.2012	47.	श्रीमती गीता पणिकत माधवन नम्बूतिरि	20.12.2012
16.	श्रीमती साली थोमस पणिकर	20.12.2012	48.	श्रीमती गीता शांताकुमार	20.12.2012
17.	श्री मणियार पवनकुमार द्वारकादासजी	20.12.2012	49.	श्री अजित रघुनाथ पप्पू	20.12.2012
18.	श्री वाई. सी. शिवकुमार	20.12.2012	50.	श्री अनिल कुमार लाल	20.12.2012
19.	डॉ. मुकुल नारायण देव	20.12.2012	51.	श्री मालशे उन्मेष दत्तात्रय	20.12.2012
20.	डॉ रोहिदास जगन्नाथ क्षिरसागर	20.12.2012	52.	श्री अशोकन के.	20.12.2012
21.	डॉ मंत्रवादी रमणमूर्ती	20.12.2012	53.	श्री नटराज जे.	20.12.2012
22.	श्री सुरेश बाबुलाल नरवरिया	20.12.2012	54.	श्री पी. सेल्वराज	20.12.2012
23.	डॉ. उमेश कुमार	20.12.2012	55.	डॉ. चौगांवकर मोहन पंढरीनाथ	31.12.2012
24.	डॉ. कार्तिक पटेल	01.01.2013	56.	डॉ. अवधेश कुमार	20.12.2012
25.	श्री सुनील नरहर सहस्रबुद्धे	20.12.2012	57.	श्री जो मोहन	20.12.2012
26.	डॉ. त्यागराजन कुप्पूस्वामी त्यागराजन	20.12.2012	58.	श्री बलतेज सिंह	20.12.2012
27.	श्री सित्तुर नारायणन रवि	20.12.2012	59.	श्री दिलीप कुमार दलाल	20.12.2012
28.	श्री कारामुकिल सन्मुगन रमेश	20.12.2012	60.	श्री नारायणन रामकुमार	24.12.2012
29.	डॉ. श्रीमती अंजली रत्नाकर कुलकर्णी	20.12.2012	61.	श्री गुजर हेमंत घनश्याम	20.12.2012
30.	डॉ. कौस्तुभ मजुमदार	20.12.2012	62.	श्री देब मुखोपाध्याय	20.12.2012
31.	श्री अजीत कुमार महेन्द्र	20.12.2012	63.	डॉ. मुकुंद श्रीनिवास कुलकर्णी	01.01.2013
32.	श्री अनिल कुमार वर्मा	20.12.2012	64.	श्री श्यामल रॉय	20.12.2012
33.	डॉ. राम निवास सिंह	20.12.2012	65.	डॉ. सुगिलाल गोपालकृष्णन	20.12.2012
34.	श्री अजय कुमार सिंह	20.12.2012	66.	श्री रमाकांत गर्ग	20.12.2012
35.	डॉ. आलोक अवस्थी	20.12.2012	67.	डॉ. देवब्रता बिस्वास	20.12.2012
36.	श्री रवि शंकर दत्ता	20.12.2012	68.	डॉ. श्रीनीवासन रंगराजन	20.12.2012
37.	डॉ. श्रीनिवास टी.	20.12.2012			
38.	श्री बालकृष्णन श्रीनिवासन	31.12.2012			शैलजा प्रकासम उप स्थापना अधिकारी
39.	श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ल	20.12.2012			
40.	डॉ. श्रीमती रेनू अग्रवाल	20.12.2012			
41.	श्री मानिक मुर्ति राजपूत	20.12.2012			
42.	श्रीमती स्मिता मनोहर	20.12.2012			
43.	श्री दीपंकर मुखर्जी	20.12.2012			
44.	डॉ. श्रीमती नीलम गोयल	20.12.2012			
45.	डॉ. रासमोहन गुइन	20.12.2012			
46.	श्री क्लमेंट सी. वर्गीस	20.12.2012			

दिनांक 1 मार्च 2013

संदर्भ : पीडी/6(1)/2012-भर्ती-III/2013/16--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती पी. एस. शामला शर्मा, सहायक, एनएफसी, हैदराबाद, को दिनांक 14.02.2013 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी



दिनांक 5 मार्च 2013

संदर्भ : पीडी/7(1)/2007-भर्ती-IV/खण्ड फाईल/2838--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के श्री अमित कुमार गुप्ता, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड डी पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'ई' के पद पर पे बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 7,600/- के वेतनमान में 01 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से इसी अनुसंधान केंद्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

मुम्बई-85, दिनांक 4 मार्च 2013

संदर्भ : पीडी/11(2)/2012-भर्ती-III/13/2810--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र श्रीमती विद्या सजिन, सहायक लेखाकार को दिनांक 29.02.2012 (पूर्वाह्न) से 28.02.2013 (अपराह्न) तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इसी अनुसंधान केंद्र में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. एस. उम्ब्रालकर  
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452013, दिनांक 4 मार्च 2013

सं. आरआरकेट/प्रशासन/भ-807(2)/307--निदेशक, राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर द्वारा श्री काला सिंह, प्रवर श्रेणी लिपिक को इस केन्द्र में वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार

पर दिनांक 16.10.2012 (पूर्वाह्न) से 18.12.2012 (अपराह्न) तक नियुक्त किया।

बी. के. जेना  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 22 फरवरी 2013

सं. पखनि-51(15)/2013-पेंशन--निम्नलिखित अधिकारी ने उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुमोदन के फलस्वरूप, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में अपने पद के भार को दर्शाई गई तारीख को त्याग दिया है :--

नाम	पदनाम	कार्यभार छोड़ने की तारीख	घटना
श्री एस. अंजन प्रसाद	वैज्ञानिक अधिकारी डी	13.02.2013 (पूर्वाह्न)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

ए. एस. लक्ष्मण राव  
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 7 मार्च 2013

सं. भापाबो/भर्ती/1(35)/व.नि.स./2013/1292--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्रीमती प्रिसिल्ला फर्नांडीस, निजी सचिव (एन एस) (वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/-) भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय) को दिनांक 20 दिसंबर, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय में रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै  
प्रशासन अधिकारी-III

जल संसाधन मंत्रालय

(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

फरीदाबाद, दिनांक 22 फरवरी 2013

सं. 16-6/210-(परी./स्था.)/इंजी. स्था.-1415--राष्ट्रपति, विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह-क-राजपत्रित) की सिफारिश एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निम्नलिखित अधिकारियों ने सहायक कार्यपालक अभियन्ता के पद पर 8,000-275-13,500/- रुपये के संशोधित वेतनमान के बैंड-3

के रुपये 15,600--39,100/- + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतनमान पर कॉलम सं. (5) में दर्शाई गई तिथि से अपनी परीक्षा अवधि सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है और कॉलम सं. 6 में दर्शाई गई तिथि को उनको मूलरूप से नियुक्त किया जाता है :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	नियुक्ति की तिथि	पदोन्नति की तिथि	परीक्षा अवधि पूरी करने की तिथि	स्थायीकरण नियुक्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री ऐ मोहन राओ, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	30.01.2006	29.01.2007	पहले से ही जे.ई. के पद पर स्थायी है	प्रभाग-14, बैंगलूर
2.	श्री एल. रामाकृष्णा, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	13.02.2006	12.02.2007	पहले से ही टी.ओ.डी. के पद पर स्थायी है	प्रभाग-3, वाराणसी
3.	श्री मन्जु, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	02.03.2006	01.03.2007	पहले से ही टी.ओ.डी. के पद पर स्थायी है	प्रभाग-9, हैदराबाद
4.	श्री सजीव, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	10.05.2006	09.05.2007	पहले से ही टी.ओ.डी. के पद पर स्थायी है	प्रभाग-4, चैन्नई
5.	श्री एम. टी. अग्रवाल, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	17.05.2007	-	16.05.2008	17.05.2008	प्रभाग-6, नागपुर
6.	श्री ऐ. के. साहु, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	01.06.2009	31.05.2010	पहले से ही डी.आई.सी. के पद पर स्थायी है	प्रभाग-15, कोलकाता
7.	श्री मांगरा ओरेन, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	20.05.2009	19.05.2010	पहले से ही डी.आई.सी. के पद पर स्थायी है	प्रभाग-5, रांची
8.	श्री ए. के. चक्रवर्ती, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	20.05.2009	19.05.2010	पहले से ही डी.आई.सी. के पद पर स्थायी है	आर.जी.आई., रायपुर
9.	श्री मुनीश मिश्रा, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	29.06.2009	28.06.2010	पहले से ही डी.आई.सी. के पद पर स्थायी है	प्रभाग-12, भोपाल
10.	श्री करुणेन्दा सोनी, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	08.06.2009	07.06.2010	पहले से ही डी.आई.सी. के पद पर स्थायी है	मुख्यालय, फरीदाबाद
11.	श्री के. के. फाही, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	21.05.2009	20.05.2010	पहले से ही डी.आई.सी. के पद पर स्थायी है	प्रभाग-10, भुवनेश्वर
12.	श्री वी. आर. दहिया सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	20.05.2009	19.05.2010	पहले से ही डी.आई.सी. के पद पर स्थायी है	प्रभाग-1, अहमदाबाद
13.	श्री एस. एन. सिंह, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	21.05.2009	20.05.2010	पहले से ही डी.आई.सी. के पद पर स्थायी है	प्रभाग-3, वाराणसी
14.	श्री एस. के. मीना, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	20.01.2010	19.01.2011	पहले से ही जेई के पद पर स्थायी है	प्रभाग-11, जोधपुर
15.	श्री एस. सी. प्रसाद, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	08.02.2010	07.02.2011	पहले से ही डी.आई.सी. के पद पर स्थायी है	प्रभाग-6, नागपुर
16.	श्री एच. के. बेहेरा, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	08.02.2010	07.02.2011	पहले से ही डी.आई.सी. के पद पर स्थायी है	प्रभाग-7, गुवाहाटी

1	2	3	4	5	6	7
17.	श्री अमित लाल, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	05.02.2010	04.02.2011	पहले से ही डी.आई.सी. के पद पर स्थायी है	प्रभाग-5, रांची
18.	श्री डी. ओबेलिसु, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	15.02.2010	14.02.2011	पहले से ही डी.आई.सी. के पद पर स्थायी है	प्रभाग-10, भुवनेश्वर
19.	श्री अमिया कुमार डैश, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	16.02.2010	15.02.2011	पहले से ही डी.आई.सी. के पद पर स्थायी है	प्रभाग-15, कोलकाता
20.	श्री जी. एस. सेनापति, सहायक कार्यपालक अभियन्ता	-	08.02.2010	07.02.2011	पहले से ही डी.आई.सी. के पद पर स्थायी है	प्रभाग-8, जम्मू

सुनील कुमार  
निदेशक (प्रशासन)

कम्पनी मामले मंत्रालय  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार  
कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स के. जी. एम. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. 560(5)/032733--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560  
की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि  
मैसर्स मैसर्स के. जी. एम. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर  
से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 7 मार्च 2013

सं.कर/दिल्ली/560(5)/एफटीई/2011/26408--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह  
सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से  
काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	152166	मैसर्स ए. डी. टोबैको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	080119	मैसर्स एम्पली इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	101699	मैसर्स आनन्द टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
4.	176796	मैसर्स एपेक्स फैंब सोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड
5.	118117	मैसर्स एपीवाई होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	191716	मैसर्स अर्जनटेम बसेसि प्राइवेट लिमिटेड
7.	108922	मैसर्स अरिहन्त रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
8.	185597	मैसर्स एक्सल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड
9.	187509	मैसर्स एक्सिस क्लोदिंग प्राइवेट लिमिटेड
10.	147011	मैसर्स बेटरलाईफ हैल्थ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
11.	143025	मैसर्स भगवती लूमटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
12.	133764	मैसर्स ब्ल्यू इम्पयार इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
13.	186936	मैसर्स करोना रियल्टी डेवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
14.	064683	मैसर्स चित्रांश सॉफ्टवेयर एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
15.	179751	मैसर्स दीपशिखा सिन्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
16.	097550	मैसर्स देशराज महाजन एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
17.	061712	मैसर्स डिकी सिक्वोरियीज प्राइवेट लिमिटेड
18.	132619	मैसर्स दीक्षा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
19.	209408	मैसर्स अर्थवाइस ई-कामर्स एण्ड लाइफस्टाइल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
20.	187418	मैसर्स ईकोजेन एनर्जी (बावल) प्राइवेट लिमिटेड
21.	187294	मैसर्स ईकोजेन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
22.	187334	मैसर्स एलीट कॉसमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
23.	213282	मैसर्स एस्टेनिशान स्पीरिट्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
24.	195182	मैसर्स एक्जिलवे फायनेन्शियल एकेडमी प्राईवेट लिमिटेड	53.	149988	मैसर्स करीना ह्यूमन रिसोर्स कन्सल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड
25.	189068	मैसर्स एक्जिलवे ऑनलाइन रिटेल प्राईवेट लिमिटेड	54.	150296	मैसर्स करीना इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
26.	188818	मैसर्स फेयरफील्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	55.	150702	मैसर्स करीना पॉवर रिसोर्सस प्राईवेट लिमिटेड
27.	133341	मैसर्स फैलो मैन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	56.	167069	मैसर्स करीना प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	121413	मैसर्स जी. जी. पोली प्लस प्राईवेट लिमिटेड	57.	174337	मैसर्स करीना शिपिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
29.	234442	मैसर्स गेल्ड एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड	58.	187435	मैसर्स कस्तूरी कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	181623	मैसर्स गोल्डकैस्टले होम्स प्राईवेट लिमिटेड	59.	176786	मैसर्स कोरपल कन्स्ट्रक्शन्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
31.	105369	मैसर्स ग्रान रॉयल सॉफ्टवेयर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	60.	039032	मैसर्स लैसको टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	152012	मैसर्स ग्रैनडयोर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	61.	136052	मैसर्स लिबकान मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
33.	022968	मैसर्स गुन्जन कन्सल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड	62.	185594	मैसर्स लाईटहाऊस बिल्डवैल प्राईवेट लिमिटेड
34.	041033	मैसर्स हैलस्ट्रोम टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड	63.	149237	मैसर्स लिटिल लीग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
35.	109654	मैसर्स हसन होम कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	64.	145394	मैसर्स लोटस इम्प्लो-एक्सपो (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
36.	040408	मैसर्स हैलपिंग हैण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	65.	148596	मैसर्स एम. के. स्पाईसेस प्राईवेट लिमिटेड
37.	152054	मैसर्स एचएन मैटल रिसोर्सिस प्राईवेट लिमिटेड	66.	217264	मैसर्स एम2 टेलीकॉम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	167030	मैसर्स एचएन पॉवर जेनरेशन प्राईवेट लिमिटेड	67.	185189	मैसर्स मेकर्स रियलटेक प्राईवेट लिमिटेड
39.	150697	मैसर्स एचपीसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	68.	209592	मैसर्स मेप्ले प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	172977	मैसर्स एचपीसी पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	69.	172976	मैसर्स मतीना पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	163813	मैसर्स एचएसएसएस गॉर्मेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	70.	185421	मैसर्स मिल्टन रियलटी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	127459	मैसर्स इमाक प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	71.	038006	मैसर्स मिन्ट लाईफ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
43.	209657	मैसर्स इन्डोकैन प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	72.	124340	मैसर्स मिथिला फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	234234	मैसर्स इनेली इटैलिया होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	73.	056612	मैसर्स मिथिला ट्री प्लांटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	100098	मैसर्स इन्फोमेडायरी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	74.	051848	मैसर्स मदरलैण्ड फायनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
46.	159168	मैसर्स इनोवेटिव एडवरटाईजिंग आईडियास प्राईवेट लिमिटेड	75.	238180	मैसर्स मस्टर्ड किचन हॉस्पिटलटी प्राईवेट लिमिटेड
47.	205160	मैसर्स इन्टरटेक टेस्टिंग एण्ड सर्टिफिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	76.	046732	मैसर्स एन. पाल चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
48.	219622	मैसर्स आईटेक सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	77.	207973	मैसर्स नीईल एनर्जी वेन्चर्स लिमिटेड
49.	030368	मैसर्स जे. एस. लाईटिंग प्राईवेट लिमिटेड	78.	187521	मैसर्स निम्बस क्लोदिंग प्राईवेट लिमिटेड
50.	144024	मैसर्स के. आर. चावला एडवाइजरी प्राईवेट लिमिटेड	79.	119955	मैसर्स नोएडा पम्पस प्राईवेट लिमिटेड
51.	058561	मैसर्स कामेश्वरी फायनेन्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	80.	039824	मैसर्स एनपीएस पैकेजिंग सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	175277	मैसर्स करीना गोल्फ एण्ड एम्युजमेन्ट पार्कस् (गोआ) प्राईवेट लिमिटेड	81.	177193	मैसर्स ऑनलाइन टैक्स माल कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
82.	187392	मैसर्स आप्टी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	137286	मैसर्स आप्टिमा वेबटेक प्राईवेट लिमिटेड
84.	168571	मैसर्स ओसिम प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	157780	मैसर्स पी. जे. एस. बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	225068	मैसर्स पी. एल. मेडिकल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
87.	217610	मैसर्स पैराडिज्म एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
88.	121638	मैसर्स पीडीजी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	035536	मैसर्स पर्ल लिमिटेड
90.	217947	मैसर्स फेक्लो ग्रेनिटे मार्बो प्राईवेट लिमिटेड
91.	228851	मैसर्स पिनाक्ले एरो इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
92.	134822	मैसर्स पीएमएस एपेरल प्राईवेट लिमिटेड
93.	199035	मैसर्स क्विक ट्रिप डिजाइनर्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	075266	मैसर्स राधिका स्मार्ट काड्स लिमिटेड
95.	163352	मैसर्स रैडिक्स ग्लोबल सोल्यूशन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
96.	177982	मैसर्स रिट्रोए मॉ ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
97.	187151	मैसर्स रेडिफ्यूजन फैशनस प्राईवेट लिमिटेड
98.	172978	मैसर्स आरएनवी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
99.	028139	मैसर्स एस.एफ.एक्स. इण्डिया लिमिटेड
100.	156746	मैसर्स एस. आर. ट्रेन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	136534	मैसर्स सालासार स्विचगियर्स प्राईवेट लिमिटेड
102.	120414	मैसर्स सने डाईमेन्सन्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
103.	062430	मैसर्स सारा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	186323	मैसर्स सर्वलोचन इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	193107	मैसर्स सचेमती फ़ैब्रिक प्राईवेट लिमिटेड
106.	116615	मैसर्स एसजीएन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	066230	मैसर्स शनबोर प्लान्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	060162	मैसर्स शिवालिक लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
109.	186314	मैसर्स सिल्वर कैसकैडे प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	196572	मैसर्स सिंहानिया चिट प्राईवेट लिमिटेड
111.	214058	मैसर्स एसकेसी रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड
112.	185187	मैसर्स स्काईव्यू इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड
113.	128966	मैसर्स स्प्रिआनो बिल्स आनन्द इन्स्ट्रुमेन्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
114.	157121	मैसर्स स्काव्हर मेटल एण्ड एलायस प्राईवेट लिमिटेड
115.	196916	मैसर्स एसएस इन्कान प्राईवेट लिमिटेड
116.	039803	मैसर्स सुदर्शन डेनिम प्राईवेट लिमिटेड
117.	056163	मैसर्स सर्विन इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
118.	166379	मैसर्स टेलीकेयर कन्ज्यूमर्स प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड
119.	225423	मैसर्स त्रिपति व्हील्स प्राईवेट लिमिटेड
120.	240391	मैसर्स टयूलिप सुपर मार्ट प्राईवेट लिमिटेड
121.	134502	मैसर्स वारे एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
122.	066641	मैसर्स विष्णु मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
123.	141465	मैसर्स बिटोल कार्बन सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
124.	187472	मैसर्स वाग्यु पेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
125.	026808	मैसर्स वेस्टेन्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
126.	150623	मैसर्स एक्स-जोन पॉवर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
127.	191493	मैसर्स यतन आयुर्वेदिक्स प्राईवेट लिमिटेड
128.	146224	मैसर्स यतन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
129.	133821	मैसर्स जेस्था प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
130.	167803	मैसर्स जिलायन मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिंग बेवरेज मशीनरी एण्ड  
सिस्टम्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
नई दिल्ली-110019, दिनांक 8 मार्च 2013

सं. 560(5)/26432--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की  
उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि  
मैसर्स सिंग बेवरेज मशीनरी एण्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज  
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में  
चंडीगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. आर.ओ.सी./560(5)/2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा  
560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	23092	मैसर्स तनेजा स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	29131	मैसर्स ट्रान्सबर्ड टाउनशिप प्राईवेट लिमिटेड
3.	14982	मैसर्स बचन लाल फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	29132	मैसर्स थेम्स लैण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	30948	मैसर्स शुभनगुरू एन्टरटेनमेंट डिवाइसेस प्राईवेट लिमिटेड
6.	17905	मैसर्स रंगम एग्रीकैम प्राईवेट लिमिटेड
7.	32022	मैसर्स नइटप इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
8.	14367	मैसर्स पपीरुस इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
9.	32619	मैसर्स के जी कैटरिंग एण्ड होस्पिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
10.	32799	मैसर्स मिलकी अट्टा प्राईवेट लिमिटेड
11.	33687	मैसर्स नागल ग्रीन एक्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	35281	मैसर्स नोवो एलिक्सर बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड

राज सिंह  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
पंजाब एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में  
चंडीगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. टीएस/एसएम/560/2013/2732--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	30676	मैसर्स सिकोआए लैबोरेट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2.	31359	मैसर्स सियी नेटवर्क गैस प्राईवेट लिमिटेड
3.	14764	मैसर्स प्रतीत साईकल्स लिमिटेड
4.	31537	मैसर्स जिंगालाला इन्फो वर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
5.	03905	मैसर्स सुखना पेपर मिल्स लिमिटेड
6.	33059	मैसर्स एम के गर्ग फाईनेशियल मैनेजमेंट कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	32427	मैसर्स वन टू वन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
8.	31526	मैसर्स जस्ट ईमेजिन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
9.	32426	मैसर्स सर्वरम इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
10.	33005	मैसर्स कोम्बरमर होलिडेज़ इन्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	32879	मैसर्स अल्मानक एडवाइज़र्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	32170	मैसर्स नेक्टर प्रोफेशनल कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

राज सिंह  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
पंजाब एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में  
चंडीगढ़, दिनांक 1 मार्च 2013

सं. टीएस/एसएम/560/2013/2747--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	16899	मैसर्स स्काइवेज हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
2.	16902	मैसर्स स्पेशल्टी स्ट्रिप्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	16898	मैसर्स जे एच कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
4.	16905	मैसर्स स्टार रिफरेक्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
5.	16907	मैसर्स डी एन फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
6.	16922	मैसर्स मलसीया फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	16928	मैसर्स के एण्ड एन गारमेंट मैनुफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	16932	मैसर्स के टी एन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	16934	मैसर्स बी आर वाई कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	16936	मैसर्स बेस्ट रबर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
11.	16942	मैसर्स धूरी कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
12.	16945	मैसर्स पेस मैनेजमेंट एण्ड कन्सलटेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
13.	16948	मैसर्स आत्म बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	16957	मैसर्स आर एम टी मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	16962	मैसर्स कन्सैट इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	16963	मैसर्स केशव सर्जीकल कॉटन प्राईवेट लिमिटेड
17.	16969	मैसर्स अमृत ऑर्गेनिक फर्टीलाइज़र प्राईवेट लिमिटेड
18.	16961	मैसर्स सुसी इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	16970	मैसर्स गनपती सिक्योरिटी प्राईवेट लिमिटेड
20.	16974	मैसर्स क्वान्टम फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड
21.	16982	मैसर्स वशुलिंगा सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	16987	मैसर्स मल्लिकोटला एग्रो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	16994	मैसर्स ट्रेडलिक एयरफ्रेट प्राईवेट लिमिटेड
24.	17002	मैसर्स गुरुकुदरत फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	17000	मैसर्स मेडीगार्ड ऑर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	17024	मैसर्स एस जे एक्सपोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	17027	मैसर्स कोलिन्स रैमेडीज़ (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
28.	17029	मैसर्स मोरनिंग पोस्ट पब्लिशिंग लिमिटेड
29.	17038	मैसर्स नीलगगन फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	17045	मैसर्स न्यू ऐज हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
31.	17046	मैसर्स नावी हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
32.	17059	मैसर्स अनमोल कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
33.	03327	मैसर्स बलूम फाईनान्स एण्ड चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
34.	17075	मैसर्स फिकुस कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
35.	17077	मैसर्स जे आर जी फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
36.	17086	मैसर्स ठाकुर एगिज़म कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
37.	17096	मैसर्स शिव फन रिजोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	17097	मैसर्स सिद्धार्थ सोप एण्ड डिटरजेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	17100	मैसर्स भीम ऑटो कम्पोनेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	17106	मैसर्स वधावन कार्ड बोर्ड प्राईवेट लिमिटेड
41.	17117	मैसर्स रोबिन मशीनरी लिंकर्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	17123	मैसर्स यशु फाईनान्स एण्ड लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
43.	17133	मैसर्स बरो फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	17145	मैसर्स धमीजा फिनलीज़ प्राईवेट लिमिटेड
45.	17154	मैसर्स सत साहिब कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	17159	मैसर्स सुखमनी रेसिन एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	03347	मैसर्स गुलनार फाईनान्स एण्ड चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
48.	17167	मैसर्स अनुभव ट्रान्सफार्मर्स एण्ड स्वीचेज़ प्राईवेट लिमिटेड
49.	17168	मैसर्स नार्दन ग्रीन हारवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
50.	17169	मैसर्स वारिच सीड्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	17176	मैसर्स हरियाणा गैसेस लिमिटेड
52.	17178	मैसर्स डियु सैनीटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	17182	मैसर्स वसंत स्टील एप्लाइसेस प्राईवेट लिमिटेड
54.	17186	मैसर्स बी एस इलैक्ट्रोमैक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
55.	17188	मैसर्स नागरमल फाईनेशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
56.	17191	मैसर्स ए एन जी मैटल्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	17194	मैसर्स करूना एक्सपोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	17204	मैसर्स विविध कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	17207	मैसर्स पाधानिया फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	17216	मैसर्स एम एम हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
61.	17222	मैसर्स सैहजपाल फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
62.	17223	मैसर्स एच आर हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
63.	17230	मैसर्स पी आर हाउसिंग एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	17237	मैसर्स आर के डी एक्सपोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	17239	मैसर्स एच एम ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	17233	मैसर्स इन्टीग्रेटेड एडवर्टाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	17243	मैसर्स एम एस फिनलीज़ प्राईवेट लिमिटेड
68.	17246	मैसर्स महंत फर्टीलाइज़र प्राईवेट लिमिटेड
69.	17248	मैसर्स श्री बांके बिहारी एग्रो मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	17242	मैसर्स मोहाली टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	17254	मैसर्स सुपरटैक स्वीचगियर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
72.	17265	मैसर्स ए एम कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
73.	17253	मैसर्स एम सी एस टैलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड	102.	17384	मैसर्स धन्दारी एलाईज प्राईवेट लिमिटेड
74.	17270	मैसर्स गान्धी फर्नीचर्स प्राईवेट लिमिटेड	103.	17388	मैसर्स जैदिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
75.	17276	मैसर्स सचदेवा फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	104.	17397	मैसर्स सी आर फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
76.	17277	मैसर्स दलजीत बस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड	105.	17394	मैसर्स सुखसुर एजुकेशनल एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
77.	17280	मैसर्स ए एच प्रिन्स पैक लिमिटेड	106.	17403	मैसर्स नीरज हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
78.	17283	मैसर्स जे वी जी टैक्सटाईल एण्ड स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	107.	17404	मैसर्स पाश हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
79.	17295	मैसर्स फ्रन्टीयर वल्डवाइड इन्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड	108.	17405	मैसर्स जहांगीराबाद हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
80.	17284	मैसर्स सिबरा एजुकेशनल कैरियर फाउन्डेशन प्राईवेट लिमिटेड	109.	17409	मैसर्स रोयल कंज्युमर सर्विसेस लिमिटेड
81.	17285	मैसर्स सिबरा ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	110.	17410	मैसर्स मीनु इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	17292	मैसर्स अमन हौज़री वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	111.	17406	मैसर्स पुगमार्क्स इम्प्रीशन्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	17305	मैसर्स प्रोग्रेसिव फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	112.	17414	मैसर्स शिखर इन्टरप्राइसिस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
84.	17308	मैसर्स लुधियाना फाईनेंशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	113.	17416	मैसर्स इन्द्र कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
85.	17312	मैसर्स सीमा फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	114.	17422	मैसर्स रोयल लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
86.	17299	मैसर्स रूबीना पेपर्स लिमिटेड	115.	17423	मैसर्स जी पी एस फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
87.	17300	मैसर्स पार्क ओवरसीज़ लिमिटेड	116.	17424	मैसर्स के एस फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
88.	17319	मैसर्स मकसन इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	117.	17425	मैसर्स जी एस फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
89.	17326	मैसर्स पलसर ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	118.	17426	मैसर्स आई जी एस फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
90.	17327	मैसर्स लक्की स्टार स्पिनर्स लिमिटेड	119.	17427	मैसर्स आई एस फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
91.	17329	मैसर्स सिटी इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	120.	17445	मैसर्स हिलसाईड डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	17331	मैसर्स अगरानी कॉटन ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	121.	17442	मैसर्स हाफटोन इम्प्रीशन्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	17332	मैसर्स मालवा टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	122.	17451	मैसर्स एस्थैटिक्स ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
94.	17346	मैसर्स बम्बई मिक्स रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ प्राईवेट लिमिटेड	123.	17452	मैसर्स टचवूड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	17351	मैसर्स धालीवाल एग्रो इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	124.	17457	मैसर्स बी. एम. फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	17356	मैसर्स वी बी कम्प्युटर इन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड	125.	17469	मैसर्स काला कोल सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	17357	मैसर्स सिटको रोडलाइन्स प्राईवेट लिमिटेड	126.	17476	मैसर्स प्रकाश हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
98.	17358	मैसर्स जडियाला बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	127.	17477	मैसर्स साची टूल्स एण्ड फोर्जिंग प्राईवेट लिमिटेड
99.	17371	मैसर्स स्नोवाइट टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	128.	17484	मैसर्स अलावलपुर डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सेस प्राईवेट लिमिटेड
100.	17375	मैसर्स बाबा श्री चन्द साहिब राईस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	129.	17485	मैसर्स के एस बडवाल हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
101.	17382	मैसर्स कैमलोट इम्पोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	130.	17481	मैसर्स पाईनवूड इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
			131.	17490	मैसर्स गुरु अमरदास मिलक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
			132.	17492	मैसर्स सुरेश प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड



1	2	3	1	2	3
133.	17501	मैसर्स साई प्रकाश एग्रो प्राईवेट लिमिटेड	163.	17617	मैसर्स ओक्सफोर्ड निटवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
134.	17511	मैसर्स हैली फैक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड	164.	17628	मैसर्स बडवाल फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
135.	17509	मैसर्स यू. सी. कारबन प्राईवेट लिमिटेड	165.	17629	मैसर्स एच एस के फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
136.	17522	मैसर्स डी. एल. हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	166.	17635	मैसर्स ए एम एक्सपोटर्स लिमिटेड
137.	17525	मैसर्स इन्डो पोलीफैब लिमिटेड	167.	17637	मैसर्स भगवती ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
138.	17527	मैसर्स टी. एम. सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	168.	17640	मैसर्स आल्टो कन्सट्रक्शन्स इण्डिया लिमिटेड
139.	17533	मैसर्स जे बी गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	169.	17646	मैसर्स वेस्ट इण्डिया एग्रो मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
140.	17534	मैसर्स चीफ लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	170.	17647	मैसर्स पुनी स्टील्स लिमिटेड
141.	17538	मैसर्स गनेश गैसेस प्राईवेट लिमिटेड	171.	17644	मैसर्स ए एम हाऊसिंग फाईनान्स लिमिटेड
142.	17549	मैसर्स शिवालिक सोना ज्वैल्स लिमिटेड	172.	17649	मैसर्स सन्धु क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड
143.	17550	मैसर्स हरगोबिन्द फाईनांशियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	173.	17652	मैसर्स एवरग्रीन पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
144.	17560	मैसर्स रिचचे स्पाईस ऑयल्स लिमिटेड	174.	17653	मैसर्स श्री तीर्थ कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
145.	17562	मैसर्स पी अग्रवाल ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	175.	17658	मैसर्स रिशी कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
146.	17571	मैसर्स जे आर डी मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड	176.	17655	मैसर्स होरीजन कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
147.	17572	मैसर्स पुनिया पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड	177.	17662	मैसर्स एस आर डी फैंब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
148.	17576	मैसर्स मैक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	178.	17663	मैसर्स अम्बीका लाईजन एण्ड कन्सलटेंसी हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
149.	17578	मैसर्स अचिन्त फाईनान्स एण्ड लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	179.	17667	मैसर्स डाय मोटर फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
150.	17584	मैसर्स आरसी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	180.	17672	मैसर्स फाईव स्टार इम्पीग्रेशन कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
151.	17588	मैसर्स दयोल डेयरी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	181.	17673	मैसर्स ए पी एस कम्प्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
152.	17589	मैसर्स औलख डेयरी फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड	182.	17686	मैसर्स अमृतसर फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
153.	17591	मैसर्स डी एस स्टील इन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड	183.	17692	मैसर्स अमृतसर कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
154.	17592	मैसर्स शम्मी होटल एण्ड रेस्टोरेंट प्राईवेट लिमिटेड	184.	17688	मैसर्स टूर यार्न्स लिमिटेड
155.	17586	मैसर्स लाभ टूर्स ट्रेवल्ल्स एण्ड फाईनान्सर्स प्राईवेट लिमिटेड	185.	17695	मैसर्स एम. एफ. बोर्ड्स एण्ड सिक्वोरिटीज लिमिटेड
156.	17598	मैसर्स सवेरा टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	186.	17693	मैसर्स सुरभी कैसेट्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	17599	मैसर्स सुपर ऐगिजम प्राईवेट लिमिटेड	187.	17698	मैसर्स जस्सु एक्स सोलजर इण्डस्ट्रीयल सिक्वोरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
158.	17602	मैसर्स जुपीटर ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	188.	17701	मैसर्स बैस सुपरटोन म्यूजिक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
159.	17603	मैसर्स शुभ लाभ एगिजम प्राईवेट लिमिटेड	189.	17709	मैसर्स एम. एफ. फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड
160.	17605	मैसर्स शुभ लाभ फाईनांशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	190.	17721	मैसर्स वी पी एम फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
161.	17606	मैसर्स सागर कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	191.	17723	मैसर्स ओशो कन्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
162.	17611	मैसर्स हिकोरी होटल एण्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड	192.	12222	मैसर्स हरनाम बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
			193.	17730	मैसर्स क्रिसमैटिक पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
194.	17738	मैसर्स के. जे. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	225.	17841	मैसर्स सिंगला मेडी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
195.	17731	मैसर्स ओ बोय फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	226.	17845	मैसर्स जमना भण्डारी फार्मान्स प्राईवेट लिमिटेड
196.	17734	मैसर्स अमृत सोलर प्राईवेट लिमिटेड	227.	17849	मैसर्स रूपाली फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
197.	17736	मैसर्स इन्डस एग्रो फार्मस प्राईवेट लिमिटेड	228.	17850	मैसर्स जतिन फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
198.	17745	मैसर्स वाई बी फार्मान्स प्राईवेट लिमिटेड	229.	17852	मैसर्स रोबोट कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
199.	17746	मैसर्स ए पी जी फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	230.	17837	मैसर्स डिवाइन गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
200.	17751	मैसर्स जे के ए फाइनैशियल सर्विसेस लिमिटेड	231.	17857	मैसर्स सर्ल फार्मान्स एण्ड लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
201.	17758	मैसर्स अक्रोन फार्माशीयल एण्ड मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	232.	17868	मैसर्स सुखना इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
202.	17771	मैसर्स रिप्ल इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	233.	17867	मैसर्स जगसन्स ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
203.	17768	मैसर्स डैल्य सिस्टम्स इंजीनियरिंग एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	234.	17874	मैसर्स युनीवर्थ स्पनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
204.	17774	मैसर्स प्रशान्त फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड	235.	17882	मैसर्स गर्चा एण्ड गर्चा फार्मान्स प्राईवेट लिमिटेड
205.	17776	मैसर्स के के कन्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	236.	17883	मैसर्स अमर हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
206.	17779	मैसर्स गुफी ग्रोथ फार्मान्स प्राईवेट लिमिटेड	237.	17877	मैसर्स खुराना इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
207.	17782	मैसर्स साहिबा फार्मान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	238.	17893	मैसर्स रॉयालस्टार फॉजिंग प्राईवेट लिमिटेड
208.	17786	मैसर्स यूले फैशन प्राईवेट लिमिटेड	239.	17895	मैसर्स जगोता फाईबर्स प्राईवेट लिमिटेड
209.	17795	मैसर्स साहिब फाईबर्स प्राईवेट लिमिटेड	240.	17898	मैसर्स बिजन पेपर्स लिमिटेड
210.	17797	मैसर्स बीबी ब्रदर्स इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	241.	17903	मैसर्स राना एग्जिम लिमिटेड
211.	17798	मैसर्स बैडलास फार्मान्स प्राईवेट लिमिटेड	242.	17901	मैसर्स सुर संगम कैसेट्स प्राईवेट लिमिटेड
212.	17800	मैसर्स बैल डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सेस प्राईवेट लिमिटेड	243.	17906	मैसर्स सुविधा मैडीकेयर प्राईवेट लिमिटेड
213.	17791	मैसर्स बाबा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	244.	17910	मैसर्स अल्फा फार्मान्स प्राईवेट लिमिटेड
214.	17804	मैसर्स मेदुला कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	245.	17911	मैसर्स जी एग्रो कैमिकल्स लिमिटेड
215.	17808	मैसर्स ग्रीन लाईन इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	246.	17920	मैसर्स रूदरा फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
216.	17809	मैसर्स शाह फाईबर्स प्राईवेट लिमिटेड	247.	17923	मैसर्स अजन्ता एडवर्टाइजिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
217.	17815	मैसर्स राना कुन्ज फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	248.	17943	मैसर्स यंगमैन लीजिंग एण्ड फार्मान्स प्राईवेट लिमिटेड
218.	17818	मैसर्स प्रीती स्टील बाल्स प्राईवेट लिमिटेड	249.	17931	मैसर्स इन्टरनेशनल होस्टीकल्चर डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड
219.	17810	मैसर्स नाईट ऑरगैनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	250.	17950	मैसर्स मून फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
220.	17829	मैसर्स ग्री क्युक इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	251.	17947	मैसर्स राना मोहिन्द्रा डिसटिलरीज लिमिटेड
221.	17832	मैसर्स दशमेश एलाईज प्राईवेट लिमिटेड	252.	17948	मैसर्स सुनेत फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
222.	17833	मैसर्स राना कुन्ज फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड	253.	17958	मैसर्स पटियाला फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
223.	17831	मैसर्स लौरकन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	254.	17972	मैसर्स बबल्स कारलाइन प्राईवेट लिमिटेड
224.	17835	मैसर्स प्राईमैक्स कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	255.	17978	मैसर्स नरुला रेस्टोरेण्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
256.	17974	मैसर्स गोल्डन बिल्डिंग मेटेरीयल्स लिमिटेड
257.	17975	मैसर्स गोल्डन कनकास्ट लिमिटेड
258.	17988	मैसर्स तेजपाल एण्ड सन्स फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
259.	17980	मैसर्स अविद इलैक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
260.	17996	मैसर्स नेचर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
261.	17999	मैसर्स पूनम डिटरजेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
262.	18000	मैसर्स अलावलपुर पौर हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
263.	18001	मैसर्स क्रॉन पोली फैब्रिक्स लिमिटेड
264.	18003	मैसर्स लुसिड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
265.	18010	मैसर्स जीवन ज्योति लैडर्स प्राईवेट लिमिटेड
266.	18015	मैसर्स मोहाली प्लास्टीक्स प्राईवेट लिमिटेड
267.	18016	मैसर्स निधा फाईनान्स हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
268.	18020	मैसर्स एस पी जिप्स प्राईवेट लिमिटेड
269.	18024	मैसर्स बम्बई ओवरसीज कार्गो कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
270.	18027	मैसर्स रेयुम इन्वेस्टमेंट एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
271.	18038	मैसर्स डी पी जी शेयर ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड
272.	18042	मैसर्स सक्क्यूरेक्स फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
273.	18056	मैसर्स जगीर हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
274.	18057	मैसर्स नैहशान फाईनान्स एण्ड लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
275.	18069	मैसर्स अवतार मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
276.	18051	मैसर्स के एन बी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
277.	18088	मैसर्स आई बी फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
278.	18090	मैसर्स भगवान माया फीड्स एण्ड फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
279.	18103	मैसर्स जपरा स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
280.	18115	मैसर्स गुगनी पोल्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
281.	18128	मैसर्स हरकृशन फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
282.	18144	मैसर्स जिरखपुर फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
283.	18156	मैसर्स एम के हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
284.	18158	मैसर्स लाल रतन कासटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
285.	18167	मैसर्स ओरियन्टल फिनवेस्ट लिमिटेड

1	2	3
286.	18197	मैसर्स आर बी केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
287.	18199	मैसर्स कोहनूर लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
288.	18213	मैसर्स पारस फिनमैन प्राईवेट लिमिटेड
289.	18221	मैसर्स अमरसन वूल कोम्बर्स लिमिटेड
290.	18229	मैसर्स अल्टीमम फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
291.	18231	मैसर्स एम पी आर हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
292.	18233	मैसर्स एरोमैरिन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
293.	18257	मैसर्स जीटीबी फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
294.	18260	मैसर्स मोनार्च सपोर्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
295.	18261	मैसर्स आर बी जे फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
296.	18254	मैसर्स विश्वा एग्रो रिजोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
297.	18247	मैसर्स शुभ करमन मोटर फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
298.	18248	मैसर्स दुरूखशान ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
299.	18267	मैसर्स एस आर एफ हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
300.	18263	मैसर्स सोनम कासटिंग प्राईवेट लिमिटेड
301.	18277	मैसर्स साई निट एक्सपो प्राईवेट लिमिटेड
302.	18282	मैसर्स पटियाला हाउसिंग एण्ड फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड
303.	18287	मैसर्स घसीटपुरा फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
304.	18293	मैसर्स वी के एस फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
305.	18296	मैसर्स पवार हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
306.	18309	मैसर्स एन जे कम्प्यूटेर्स प्राईवेट लिमिटेड
307.	18310	मैसर्स प्रैस्टीज हायर परचेज एण्ड फाईनान्सीयर्स प्राईवेट लिमिटेड
308.	18313	मैसर्स अकांशा लीजिंग एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
309.	18326	मैसर्स जे डब्ल्यू एक्सपोर्ट्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
310.	18327	मैसर्स जी एच एम एडवर्टाइजिंग एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
311.	18332	मैसर्स मानसी फूड्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
312.	18345	मैसर्स यमुना फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
313.	18349	मैसर्स कूनर लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
314.	18365	मैसर्स बलवन्त पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड	337.	18503	मैसर्स हरजस फाईनान्सीयर्स प्राईवेट लिमिटेड
315.	18366	मैसर्स कृष्णा टीवी आर्ट क्रिएशन्स लिमिटेड	338.	18499	मैसर्स क्रौन कैसेट्स प्राईवेट लिमिटेड
316.	18378	मैसर्स अपूर्ब फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	339.	18541	मैसर्स ओरियेन्टल एग्रो प्लान्टेशन एण्ड ड्रग्स इण्डिया लिमिटेड
317.	18389	मैसर्स सेंगार फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड	340.	18553	मैसर्स ख्याती कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
318.	18392	मैसर्स सपूतनिक कम्प्युटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	341.	18554	मैसर्स पुशपाल फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
319.	18395	मैसर्स जगदीप फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	342.	18572	मैसर्स इस्मा एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
320.	18397	मैसर्स बिन्द्रा हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	343.	18575	मैसर्स गोविन्द कॉनकास्ट लिमिटेड
321.	18398	मैसर्स मेघा टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	344.	18576	मैसर्स ईडर केबल्स इण्डिया लिमिटेड
322.	18399	मैसर्स यूरो कैम टेक्नोलॉजिस लिमिटेड	345.	18583	मैसर्स सिधार्थ फिनमैन प्राईवेट लिमिटेड
323.	16670	मैसर्स स्कोयर कैपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	346.	18585	मैसर्स ऑनलाईन फिनकैप्स लिमिटेड
324.	18420	मैसर्स इमीनेंस हाउसिंग एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड	347.	18592	मैसर्स जीवन ज्योती फिनवेस्ट लिमिटेड
325.	18428	मैसर्स किसान फ्लोरेटिक लिमिटेड	348.	18599	मैसर्स बादशाह दरवेश हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
326.	18426	मैसर्स आरियेंटल टैलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड	349.	18608	मैसर्स पी एच सिक्योरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड
327.	18432	मैसर्स फागू पोल्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड	350.	18610	मैसर्स नीलकन्ठ डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सेस प्राईवेट लिमिटेड
328.	18451	मैसर्स प्रकाश बेकर्स प्राईवेट लिमिटेड	351.	18615	मैसर्स हर्ष प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
329.	18459	मैसर्स ऐमसन्स हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	352.	18613	मैसर्स रेहाल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
330.	18462	मैसर्स मैसरोक सिक्योरिटी इन्व्पमेंट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	353.	18623	मैसर्स गुरुकृपा कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
331.	18470	मैसर्स सूरूप प्रोजेक्ट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	354.	18635	मैसर्स एच डी प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड
332.	18472	मैसर्स एच डी एच फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	355.	18636	मैसर्स जोहल ब्रदर्स हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
333.	18471	मैसर्स ऑनलाईन वर्ल्ड होटल्स लिमिटेड	356.	18644	मैसर्स हिमसन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
334.	18490	मैसर्स कलगीधर रीयल एस्टेट्स एण्ड हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड	357.	18649	मैसर्स सुरखाब इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
335.	18493	मैसर्स लक्ष्मी स्ट्रिप्स एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड			
336.	18494	मैसर्स एन आर इन्टरनेशनल पैट्रोलियम प्राईवेट लिमिटेड			

राज सिंह  
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज  
पंजाब एवं चण्डीगढ़

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 4th March 2013

No. A-32011/1/2010-Admn.I—DoP&Trg. vide their O.M. No. 27/38/2012-EO-(SM-I) dated 25.02.2013 has conveyed the approval of Appointment Committee of the Cabinet to the extension of Central Deputation tenure of Shri Rakesh Kumar Gupta, IAS (JK:86), Additional Secretary (JS level), Union Public Service Commission for a period of three months beyond 15.02.2013.

2. Accordingly the Central Deputation tenure of Shri Rakesh Kumar Gupta, IAS (JK:86), Additional Secretary (JS level), Union Public Service Commission, is extended for a period of three months beyond 15.02.2013 and upto 15.05.2013.

RAJIV SRIVASTAVA  
Jt. Secy. (Admn.)

New Delhi, the 4th March 2013

No. A-60011/03/2013-RTI Cell(Admn.)—In terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri S.P. Singh, Deputy Secretary, (AIS) of the Union Public Service Commission, is hereby designated as Central Public Information Officer, with immediate effect, in respect of the specific subject matters mentioned against his name as under:—

Name of the CPIO	Subject matter	Appellate Authority
Sh. S.P. Singh, DS(AIS)	All RTI matters pertaining to induction of State Services Officer to All India Services with respect to cadres allotted.	Sh. Shailendra Singh Jt. Secy. (AIS)

NEERAJ SACHDEVA  
Under Secy. (Admn.)

The 8th March 2013

No. A-35014/03/2011-Admn.II—Pursuant to the recommendations of the Union Public Service Commission,

Secretary, UPSC is pleased to appoint Smt. Uma Srinivasan, Receptionist in the Office of UPSC, to the post of Reception Officer (General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial) in PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- in the Commission's Office on regular promotion basis w.e.f. 07.03.2013.

NEERAJ SACHDEVA  
Under Secy. (Admn.)

## DIRECTORATE OF ENFORCEMENT

New Delhi-110003, the 6th March 2013

No. A-4/15/2010—Director of Enforcement hereby appoints the following Inspectors of Central Excise and Customs/Income-Tax/Police Officials as Enforcement Officers on deputation basis in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- for a period of three years w.e.f. the dates indicated against their names or until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of joining
	(S/Shri)	
1.	Mukesh Kumar	11.01.2013
2.	Ronodev Basu	01.02.2013
3.	Ajit Kumar Srivastava	04.02.2013
4.	Amol Shrawan Waghmare	05.02.2013 (AN)

M. G. ATTRI  
Jt. Director (Admn.)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 1st March 2013

No. P. VII-1/2013-Min—Consequent on his promotion from Subedar Major (Steno) to the post of Assistant Commandant (Private Secretary), Shri Rishi Kesh Meena (IRLA-9323), has taken over charge as Assistant Commandant (Private Secretary) at Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi on 11.02.2013 (FN).

SATPAL KAPOOR  
DIGP (Organisation)

## DIRECTORATE GENERAL

## CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 28th February 2013

No. E-28017/Noti/2009/Pers.II/362—The following CISF officers have relinquished their charge of the post from the date, Units/HQrs. for the reasons mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the GO's	Post Held	Date of Retirement	Unit/HQrs	Reason for Relinquishment of charge
1	2	3	4	5	6
	(Shri/Smt.)				
1.	Hermit Singh Khana	AC	01.04.2009 (FN)	DSP Durgapur	VRS
2.	Salilkumar Biswas	DC	01.05.2009 (FN)	FBP, Farakka	VRS

1	2	3	4	5	6
	(Shri/Smt.)				
3.	B.S. Kolaj	DC	01.06.2009 (FN)	8th RB, Jaipur	VRS
4.	Rampal Singh	AC	01.03.2010 (FN)	BIM, Tensa	VRS
5.	Tapan Debnath	DC/F	01.05.2010 (FN)	Othpp Obra	VRS
6.	J.K. Ghosh	AC	04.05.2010 (FN)	3rd RB, Bhilai	VRS
7.	R.C. Handu	Comdt.	05.07.2010 (FN)	ONJC (J)	VRS
8.	G. C. Bilarwan	Comdt.	01.08.2010 (FN)	7th RB, Kishtwar	VRS
9.	G.C. Chattopadhyay	DC	01.08.2010 (FN)	SSG, Noida	VRS
10.	C.G. Sharma	Sr. Co	01.08.2010 (FN)	1st RB Barwaha	VRS
11.	Chandra Kumar	Comdt.	01.09.2010 (FN)	NTPC, Dadri	VRS
12.	Dharamveer Yadav	DC	01.10.2010 (FN)	RTC, Behror	VRS
13.	M.S. Inwate	DC	01.11.2010 (FN)	BCCL (D)	VRS
14.	B.S. Jamwal	DC	01.11.2010 (FN)	ASG, Varanasi	VRS
15.	P.S. Suhag	AC/F	01.03.2011 (FN)	HTPP, (Kashimpur)	VRS
16.	P.K. Basu	AC/F	01.04.2011 (FN)	SMPL, Rajkot	VRS
17.	Dr. Alka Nand Dash	Sr. Co	01.06.2011 (FN)	NISA, Hyderabad	VRS
18.	K.N. Mathur	AC/F	02.07.2011 (FN)	VSP Vizag	VRS
19.	R. Shivrama	DC	03.07.2011 (FN)	2nd Res Bn, Ranchi	VRS
20.	P.S.B. Nair	Sr. Co	05.07.2011 (FN)	4th Bn. NDRF	VRS
21.	V.K. Arora	DC	01.08.2011 (FN)	BWS, Bhilai	VRS
22.	Rishi Deo Rai	DC	01.08.2011 (FN)	NFL, Panipat	VRS
23.	William Thomas	AC	01.08.2011 (FN)	Shep Salal	VRS
24.	G.K. Kuchhal	AC/JAO	01.09.2011 (FN)	AP (E & NE), Kolkata	VRS
25.	M.Y. Khan	AC/JAO	25.10.2011 (FN)	NEZ HQ, Kolkata	VRS
26.	N.K. Maharaj	AC	19.10.2011 (FN)	ISP, Nasik	VRS
27.	J.N. Rampal	DC	01.10.2011 (FN)	HEC, Ranchi	VRS
28.	K.K. Das	AC/JAO	01.11.2011 (FN)	CISF HQrs.	VRS
29.	R.P. Mishra	Sr. Co	01.11.2011 (FN)	RAPS, Kota	VRS
30.	K.T. Maheshkar	DC	01.12.2011 (FN)	SSG, Noida	VRS
31.	J. Prabhakaran	DC	01.01.2012 (FN)	SSG, Noida	VRS
32.	Kuldeep Yadav	AC/F	01.01.2012 (FN)	DTPS, Durgapur	VRS
33.	S.S. Sandhu	AC	16.01.2012 (FN)	NFC, Hyderabad	VRS
34.	B.K. Pareek	AC/F	01.04.2012 (FN)	SMPL, Rajkot	VRS
35.	S. Sarkar	DIG	31.05.2012 (FN)	BCCL, Dhanbad	VRS
36.	P.K. Panda	Co	01.07.2012 (FN)	GP. HQ., Hyderabad	VRS
37.	Trilok Singh	AC/F	01.08.2012 (FN)	NTPC, Simhdri	VRS
38.	Pawan Kumar	AC	30.10.2012 (FN)	4th RB, Jaipur	VRS

1	2	3	4	5	6
	(Shri/Smt.)				
39.	Shri P. K. Moorthy	DC/LR	01.10.2012	DSP, Durgapur	VRS
40.	Shri Narendra Kumar Yadav	Comdt.	01.10.2012 (FN)	7th RB, Kishtwar	VRS
41.	Shri B. R. Roy	Comdt.	01.10.2012 (FN)	NS HQrs., New Delhi	VRS
42.	Shri P. Paul Thurai	DC	01.11.2012 (FN)	NISA, Hyderabad	VRS
43.	Shri M.L. Thakur	DC	01.11.2012 (FN)	NSPCL, Bhilai	VRS
44.	Shri Rama Oran	AC	01.11.2012 (FN)	9th RB Deoli	VRS
45.	Shri U.P. Srivastava	AC/JAO	01.12.2012 (FN)	VSP, Vizag	VRS
46.	Shri Vijay Laxmi	AD/OL	19.11.2012 (FN)	CISF HQrs. Hindi Cell	VRS
47.	Shri J.N. Das	AC/JAO	01.01.2013 (FN)	GP. HQ, Chandigarh	VRS

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

New Delhi-110003, the 4th February 2013

No. E-16013(1)/1/DIG-DEP/07/Pers-I/87—The President is pleased to appoint Dr. K. Jayanth Murali, IPS, (TN : 1991) as Inspector General, Central Industrial Security Force, in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay Rs. 10,000/-. The officer has assumed the charge of IG/South Sector HQrs., Chennai with effect from the forenoon of 11.02.2013.

SHIKHA GOEL  
Dy. Inspector General (Pers.)

charge as Senior Divisional Accounts Officer for fixation of pay on promotion.

(Authority: A.G.'S order Dt. 28.02.2013)

VANLALCHHUANGA  
Sr. Dy. Accountant General

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL  
(GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT), ODISHA

Bhubaneswar, the 7th March 2013

No. Admn. (G&SSA)17-2(AO)/Vol-VII/3589—In pursuance of OOC No. 1366 dated 28.02.2013 communicated vide Memo No. Admn. (G&SSA)-17-2(AO)/Vol-VII/3510 dated 28.02.2013 the following Asst. Audit Officers on promotion has assumed the charge as Audit Officer (Civil) in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- with corresponding Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the date as indicated against them:—

Sl. No.	Name	Date of taking over charge as Audit Officer
	(S/Shri)	
1.	Anil Kumar Panda	01.03.2013 (FN)
2.	Abakash Khatua	01.03.2013 (FN)
3.	Ashok Kumar Sen	04.03.2013 (FN)

DEEPAK MOHANTY  
Audit Officer/Admn.

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE  
ACCOUNTS

Delhi Cantt-10, the 11th February 2013

No. AN/XI/12305/PS/Gaz Notification—The Competent Authority of Defence Accounts Department, Pr. Controller

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL  
(A&E), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 1st March 2013

No. WM-I/Q-55(G)/Vol.III/3363-3365—Under the order of the Accountant General (A&E), West Bengal the following Divisional Accounts Officer Gr-I is hereby promoted as Senior Divisional Accounts Officer in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary and officiating capacity with effect from 01.03.2013 (FN) or the date of assumption of charges as Sr. D.A.O. whichever is later in the present Division till further order. He will be on probation for a period of 2(two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Sri Nirmal Kumar Pahari

The above named Officer may submit his option under F.R. 22(I)(a)(i) within one month from the date of taking over

of Accounts (Fys), Pr. Controllers of Defence Accounts/ Controllers of Defence Accounts/Dy. CGDA(Admin) as the case may be hereby appoint the individual mentioned in the Annexure 'A' as Private Secretary (Gp 'B') with effect from the date as noted against officer until further orders.

P. K. RAI  
Sr. ACGDA (Admin)

Annexure

List of 'Private Secretary'

Sl. No.	Name	Date of Promotion as PS	ORGN
1	2	3	4
	(S/Shri/Smt./Km.)		
1.	Javed Ahmed	24.10.2008	FY
2.	Usha G. Dhoble	24.10.2008	AF
3.	Shila Banerjee	24.10.2008	FY
4.	P.V. Mulay	24.10.2008	NADFM
5.	B.R. Roy Chaudhury	24.10.2008	GT
6.	Mridula Gupta	24.10.2008	AF
7.	Paramkusha Soorada	29.10.2008	NY
8.	S. Mary Pamala	24.10.2008	FY
9.	Pabitra Choudhary	24.10.2008	PN
10.	Jacob Mathew	24.10.2008	FY
11.	Krishna Nath	24.10.2008	NADFM
12.	S. Bharadwaj	24.10.2008	BL
13.	Tripta Sabarwal	24.10.2008	ND
14.	Subrota Biswas	24.10.2008	RD
15.	China Ghosh	24.10.2008	FY
16.	A. Surendran	24.10.2008	BL
17.	M. Geetha	24.10.2008	RB
18.	V.D. Kannan	24.10.2008	CG
19.	Savita Sushil SMT.	24.10.2008	CC
20.	Subhadra Rajagopal	23.10.2009	CN
21.	S.S. Kulkarni	15.02.2010	SC
22.	Sheela Shringare	15.02.2010	CSD
23.	Umesh Garg	15.02.2010	CC
24.	Anjana Dwivedi SMT.	15.02.2010	CC
25.	Narendra Kumar Sharma	15.02.2010	FD
26.	Om Parkash	15.02.2010	CG
27.	Uma Badola	15.02.2010	CG
28.	Susan Thomas	17.05.2012	BR

1	2	3	4
29.	Seema Sharma	17.05.2012	FD
30.	R. Narayan	12.06.2012	BL
31.	Shirley Rex	18.05.2012	FY
32.	B.K.N. Narasappa	17.05.2012	OF
33.	C. H. Hanumantha Rao	18.06.2012	SB
34.	V. Madhusudhan	01.08.2012	BL
35.	Suman Kumari	29.06.2012	CSD
36.	Neetu Balasubramanian	17.05.2012	FY
37.	Jaswant Kaur	18.05.2012	CG
38.	Babita Sachdeva	17.05.2012	BR
39.	Kanchan Sikri	18.05.2012	CG
40.	Jayashree-V	17.05.2012	CN
41.	Laxmi Narayan	18.05.2012	CG
42.	Bindu C.P.	18.05.2012	AD

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 1st March 2013

No. 1593/SP/A-32013/3-Chemist.Jr/98/19B—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Assistant Chemists Gr.-I on promotion to the post of Chemists in the same Department and on pay according to rules in the PB-3: Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the date mentioned against each, on regular basis, until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of promotion to the post of Chemist
1	2	3
	S/Shri	
1.	Pradip Kr. Bandyopadhyay	03.04.2012 (FN)
2.	P. Premakumar	16.04.2012 (AN)
3.	Amit Shankar Borah	03.04.2012 (FN)
4.	Anand Singh Rawat	03.04.2012 (FN)
5.	M. Rajani Kanta Rao	03.04.2012 (FN)
6.	Gouranga Banerjee	03.04.2012 (AN)
7.	Sher Singh	03.04.2012 (FN)
8.	Jawahar Lal	03.04.2012 (FN)
9.	H.B. Vaghela	03.04.2012 (AN)
10.	C.D. Misra	03.04.2012 (FN)



1	2	3
11.	P.D. Bairwa	03.04.2012 (FN)
12.	S.C. Prasad	03.04.2012 (AN)
13.	Dipak Sarkar	03.04.2012 (FN)
14.	M.S. Dahat	03.04.2012 (AN)
15.	Smt. Tulsi Dharm Shaktu	03.04.2012 (FN)

MOHD. NASEEM KHAN  
Admn. Officer Gr.-II  
for Director General

Kolkata-700016, the 6th March 2013

No. 1660/SP/A-32013/5-Dir.(ME)(SG)/2006/19B—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint of the following Director (M.E.), Geological Survey of India as Director (M.E.) (NFSG) in the same Department in the scale of Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- with the Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the date as indicated below :—

Name	Present place of posting	Director (Mech.Engg.) (NFSG) w.e.f.
Shri K. N. Sinha	GSI, Central Region, Nagpur	01.11.2012

Pay in the post of Director (M.E.) (NFSG), will be fixed in accordance with the rules. The officer may, however, exercise option for fixation of his pay under FR-22(I) (a) (2) to the post of Director (M.E.) (NFSG). The option for fixation of pay is to be exercised within one month from the date of issue of this Notification.

Inter-se-seniority in the grade of Director (Mech. Engg.) will not change as a result of appointment to Selection Grade.

Y. P. RAWAT  
Regional Administrative Officer  
for Director General

No. 1661/SP/A-32013/5-Dir.(ME)/2008-11/19B—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint of the following Mechanical Engineer (Senior) on promotion to the post of Director (M.E.) in the same Department in the Pay Band-3 : Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the date mentioned against him. However, he is posted to GSI, NER, Shillong w.e.f. 01.04.2013 in the interest of public service :—

Name	Date of promotion to the post of Director (ME)
Sri Pakki Varaprasad	06.12.2012 (FN)

His pay in the post of Director (M.E.) will be fixed in accordance with the provisions under FR-22(I) (a) (1). The option for fixation of pay is to be exercised within one month from the date of issue of this Notification.

Y. P. RAWAT  
Regional Administrative Officer  
for Director General

The 11th March 2013

No. 1773/SP/A-32013/2-Geophys.(Jr.)(Instn.)/2008/19B—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Assistant Geophysicist (Instn.) Gr.-I on promotion to the post of Geophysicist (Jr.) (Instn.) in the scale of Pay Band-3 : (Rs. 15,600—39,100/-) with the Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates mentioned against each as below on regular basis :—

Sl. No.	Name	Date of promotion to the post of Geophysicist (Jr.)
1.	Shri Sujit Kumar Roy	04.09.2012 (AN)
2.	Shri Arun Kumar Srivastava	29.10.2012 (AN)
3.	Shri Shashi Pal Singh	29.10.2012 (AN)
4.	Shri Rajeev Ranjan	04.09.2012 (AN)
5.	Smt. Saralin Khongwar	04.09.2012 (AN)

Y. P. RAWAT  
Regional Administrative Officer  
for Director General

## MINISTRY OF CULTURE

### (DEPARTMENT OF CULTURE)

### ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 28th February 2013

No. 4-367/2012/Estt.—On the recommendations of the Ministry of Statistics & Programme Implementation, New Delhi-110001 vide their Order No. 12016/3/2009-SSS dated 29.03.2010 and the letter issued by NSSO (FOD), Dehradun vide No. 2(9) Per./Estt./Dehra./North/2010-11 dated 19.04.2010, the Director, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Shri Kumer Singh Kathait to the post of Statistical Investigator, Grade-I, Group-B (Gazetted) in the revised Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with the Grade Pay of Rs. 4,600/- at the North Western Regional Centre of this Survey at Dehradun with effect from the forenoon of the 26th April, 2010, on ad hoc promotion, until further orders.

D. N. PANDEY  
Head of Office

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &amp; COOPERATION)

## DIRECTORATE OF MARKETING &amp; INSPECTION

Faridabad, the 28th February 2013

No. A-19024/1/2013A.I—On attaining the age of superannuation, Shri Satya Prakash Sharma Gaur, Senior Chemist, Directorate of Marketing & Inspection, Regional Agmark Laboratory, New Delhi has retired from Government Service with effect from 31st January, 2013 (Afternoon).

M. L. SIKKA  
Under Secy.

## BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 13th February 2013

No. PD/7(6)/2012-R-IV/SO(C)/ETG/2070—The President is pleased to appoint Smt. Jayasudha Prabhu, Scientific Officer/Engineer Grade 'SB' Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/-, in the same Research Centre with effect from the forenoon of the July 1st, 2011, in an officiating capacity until further orders.

MADHAVI S.  
Dy. Establishment Officer

Mumbai-85, the 20th February 2013

No. PD/4(6)/2007-R-III/2013/2465—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri John Maria Irudayaswamy, Stenographer Grade-I to the post of Private Secretary (Non-Secretariat) on regular basis with effect from the forenoon of 13.12.2012 in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/- in this Research Centre until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

No. PD/4(6)/2007-R-III/2013/2466—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Anitha Murugan, Stenographer Grade-I to the post of Private Secretary (Non-Secretariat) on regular basis with effect from the forenoon of 14.12.2012 in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/- in this Research Centre until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

The 28th February 2013

No. PD/7(9)/2013-R-IV/(DS)/T-11—The President is pleased to appoint undermentioned Outstanding Scientists Higher Administrative Grade Scale Rs. 67,000—79,000/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Distinguished Scientist in HAG + Scale of Rs. 75,500—80,000/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of December 20, 2012 in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name
1.	Dr. Bhagawantrao Narasingrao Jagtap
2.	Dr. Pradip Kumar Tewari
3.	Dr. Ashoka Kumar Das
4.	Dr. Pallippattu Krishnan Vijayan
5.	Shri Satyabrata Sarkar
6.	Shri Kamlesh Nilkanth Vyas
7.	Shri Ram Charan Sharma
8.	Dr. Ram Kumar Singh
9.	Dr. Shiv Kumar Gupta

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(10)/2013-R-IV/(OS)/T-12—The President is pleased to appoint undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'H' Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Outstanding Scientists in the Higher Administrative Grade Scale Rs. 67,000—79,000/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of December 20, 2012, except Shri Aswathanarayan Ramarao, Sl. No. 19 whose date of appointment is with effect from the forenoon of December 24, 2012 in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name
1	2
1.	Shri Moh. Afzal
2.	Shri Abdulla Kolliylil Kunjimuhammed
3.	Dr. Naba Kishore Sahoo
4.	Dr. Arunachalam Jayaraman
5.	Dr. (Smt.) Shyamala Rajkumar Bharadwaj
6.	Shri Bangalore Shivashankar Jagadeesh

1	2
7.	Shri Sanjay Kumar Parulkar
8.	Shri Ramavarmaraja Mathoor Suresh Babu
9.	Shri Debashis Das
10.	Shri Kalyan Banerjee
11.	Dr. Kiran Balwantrao Thakur
12.	Dr. Manmohan Singh Bhatia
13.	Shri Pramod V. Bhagwat
14.	Dr. Amar Sinha
15.	Shri Hrishikesh Mishra
16.	Shri Amitava Roy
17.	Shri Vijaykumar Keshav Savarkar
18.	Shri Rudraraju Panduranga Raju
19.	Shri Aswathanarayan Ramarao
20.	Shri Bobby Suryanarayan Vedula Gurumurthy Sharma
21.	Shri Joemon Vattukunnel
22.	Dr. Dipak Kumar Palit
23.	Shri Anil Bhatnagar
24.	Dr. Sanjay Chandrakant Gadkari
25.	Dr. (Smt.) S. B. Roy

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(11)/2013-R-IV/50(H)/T-13—The President is pleased to appoint undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'G' Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,900/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'H' in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of the dates indicated under column 3 against each, in an officiating capacity until further orders :—

Sl. No.	Name	Date
1	2	
1.	Shri Kakaraparthi Srinivas	20.12.2012
2.	Shri Rajiv Narsimhan	20.12.2012
3.	Shri Raj Bhushan Bhatt	20.12.2012
4.	Shri R. Kameswaran	20.12.2012

1	2	3
5.	Dr. Rakesh Verma	20.12.2012
6.	Dr. Rabindra Kumar Rout	20.12.2012
7.	Smt. Kavita P. Dixit	20.12.2012
8.	Shri Satyanarayan Acharya	20.12.2012
9.	Dr. M. V. Suryanarayana	20.12.2012
10.	Shri Dondapati Sudhakara Rao	20.12.2012
11.	Shri Kamal Narayan Karan	20.12.2012
12.	Dr. Arvind Kumar Tripathi	20.12.2012
13.	Shri Kalmady Rajesh	20.12.2012
14.	Dr. S.C.A.V.S.S. Rao	20.12.2012
15.	Shri Manoj Kumar Singh	20.12.2012
16.	Smt. Saly Thomas Panicker	20.12.2012
17.	Shri Maniyar Pawankumar Dwarkadasji	20.12.2012
18.	Shri Y. C. Shivakumar	20.12.2012
19.	Dr. Mukul Narayan Deo	20.12.2012
20.	Dr. Rohidas Jagannath Kshirsagar	20.12.2012
21.	Dr. Mantravadi Ramanamurthi	20.12.2012
22.	Shri Suresh Babulal Narwaria	20.12.2012
23.	Dr. Umesh Kumar	20.12.2012
24.	Dr. Kartik Patel	01.01.2013
25.	Shri Sunil Narahar Sahasrabudhe	20.12.2012
26.	Dr. Thiyagarajan Kuppusamy Thiyagarajan	20.12.2012
27.	Shri Chittur Narayanan Ravi	20.12.2012
28.	Shri Karamukil Shanmughan Remesh	20.12.2012
29.	Dr. (Smt.) Anjali Ratnakar Kulkarni	20.12.2012
30.	Dr. Kaustubh Mazumdar	20.12.2012
31.	Shri Ajit Kumar Mahendra	20.12.2012
32.	Shri Anil Kumar Verma	20.12.2012
33.	Dr. Ram Niwas Singh	20.12.2012
34.	Shri Ajoy Kumar Singh	20.12.2012
35.	Dr. Alok Awasthi	20.12.2012
36.	Shri Rabi Sankar Dutta	20.12.2012
37.	Dr. Sreenivas Tumuluri	20.12.2012

1	2	3
38.	Shri Balakrishnan Srinivasan	31.12.2012
39.	Shri Narendra Kumar Shukla	20.12.2012
40.	Dr. (Smt.) Renu Agarwal	20.12.2012
41.	Shri Manik Murti Rajput	20.12.2012
42.	Smt. Smitha Manohar	20.12.2012
43.	Shri Dipanakar Mukherjee	20.12.2012
44.	Dr. (Smt.) Neelam Goyal	20.12.2012
45.	Dr. Rasmohan Guin	20.12.2012
46.	Shri Clement C. Verghese	20.12.2012
47.	Smt. Geetha Panikkath Madhavan Namboodiri	20.12.2012
48.	Smt. Geetha Santhakumar	20.12.2012
49.	Shri Ajit Raghunath Pappu	20.12.2012
50.	Shri Anil Kumar Lal	20.12.2012
51.	Shri Malshe Unmesh Dattatray	20.12.2012
52.	Shri Asokan K.	20.12.2012
53.	Shri Nataraj J.	20.12.2012
54.	Shri P. Selvaraj	20.12.2012
55.	Dr. Chougaoonkar Mohan Pandharinath	31.12.2012
56.	Dr. Awadhesh Kumar	20.12.2012
57.	Shri Joe Mohan	20.12.2012
58.	Shri Baltej Singh	20.12.2012
59.	Shri Dilip Kumar Dalal	20.12.2012
60.	Shri Narayanan Ramkumar	24.12.2012
61.	Shri Gujar Hemant Ghanashyam	20.12.2012
62.	Shri Deb Mukhopadhyay	20.12.2012
63.	Dr. Mukund Shrinivas Kulkarni	01.01.2013
64.	Shri Shyamal Roy	20.12.2012
65.	Dr. Sugilal Gopalakrishnan	20.12.2012
66.	Shri Ramakant Garg	20.12.2012
67.	Dr. Debabrata Biswas	20.12.2012
68.	Dr. Srinivasan Rangarajan	20.12.2012

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

The 1st March 2013

No. PD/6(1)/2012-R-III/2012/16—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. P. S. Syamala Sarma, Assistant, NFC, Hyderabad, to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- in this Research Centre with effect from the forenoon of 14.02.2013 on regular basis until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

The 5th March 2013

No. PD/7(1)/2007-R-IV/Part File/2838—The President is pleased to appoint Shri Amit Kumar Gupta Scientific Officer/Engineer Grade 'D' Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- of Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade 'E' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of February 1, 2008, in an officiating capacity until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

Mumbai-85, the 4th March 2013

No. PD/11(2)/2012-R-III/13/2810—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Vidya Sajin, Assistant Accountant as Assistant Accounts Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 29.02.2012 (FN) to 28.02.2013 (AN).

R. S. UMBRAKAR  
Assistant Personnel Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED  
TECHNOLOGY

Indore-452013, the 4th March 2013

No. RRCAT /Admn/R-807(2)/307—Director, Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore has appointed Shri Kala Singh, Upper Division Clerk to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- on purely ad hoc basis during the period from 16.10.2012 (FN) to 18.12.2012 (AN).

B. K. JENA  
Chief Administrative Officer

**ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR  
EXPLORATION AND RESEARCH**

Hyderabad-500016, the 22nd February 2013

No. AMD-51(15)/2013-Pen.—The following Officer has relinquished the charge of his post in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Department of Atomic Energy on acceptance of voluntary retirement on the date mentioned :—

Name & Designation	Date of Relinquishment	Event
Shri S. Anjan Prasad, Scientific Officer-D,	13.02.2013 (FN)	Voluntary retirement

A. S. LAXMAN RAO  
Chief Admn. and Accounts Officer

**HEAVY WATER BOARD**

Mumbai-400094, the 7th March 2013

No. HWB/R/1(35)-Sr.PS/2013/1292— Chief Executive, Heavy Water Board appoints Smt. Priscilla Fernandes, Private Secretary (NS) (Pay Band Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,600/-) Heavy Water Board (Central Office) to officiate as Senior Private Secretary in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/ in the same office with effect from the forenoon of December 20,2012 until further orders.

K.S. PILLAI  
Admn. Officer-III

**MINISTRY OF WATER RESOURCES**

**(CENTRAL GROUND WATER BOARD)**

Faridabad-121001, the 22nd February 2013

No. 16-6/2010-(Prob/Confirm)-Engg.Estt.-1415—On the recommendations of the DPC Group 'A' (Gazetted Non-Ministerial) and with the approval of the Competent Authority, the following Officers have completed their probation period satisfactorily as Assistant Executive Engineer in the pre-revised Pay Scale of Rs. 8,000—13,500/- Revised Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- w.e.f. the dates mentioned against their names in Col. (5) and substantively appointed w.e.f. the dates mentioned against their names in Col No. (6) :—

Sl. No.	Name & Designation	Date of Appointment	Date of Promotion	Date of Completion of Probation Period	Date of Confirmation	Present Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sh. A Mohan Rao, AEE	—	30.01.2006	29.01.2007	Already Pmt. as JE	Div-XIV, Bangalore
2.	Sh. L. Ramakrishna, AEE	—	13.02.2006	12.02.2007	Already Pmt. as T.O. (D)	Div-III, Varanasi
3.	Sh. Manju, AEE	—	02.03.2006	01.03.2007	Already Pmt. as T.O. (D)	Div-IX, Hyderabad
4.	Sh. Sajeev, AEE	—	10.05.2006	09.05.2007	Already Pmt. as T.O. (D)	Div-IV, Chennai
5.	Sh. M. T. Agarwal, AEE	17.05.2007	—	16.05.2008	17.05.2008	Div-VI, Nagpur
6.	Sh. A. K. Sahoo, AEE	—	01.06.2009	31.05.2010	Already Pmt. as DIC	Div-XV, Kolkatta
7.	Sh. Mangra Oran, AEE	—	20.05.2009	19.05.2010	Already Pmt. as DIC	Div-V, Ranchi
8.	Sh. A. K. Chakraborty, AEE	—	20.05.2009	19.05.2010	Already Pmt. as DIC	RGI, Raipur
9.	Sh. Munish Mishra, AEE	—	29.06.2009	28.06.2010	Already Pmt. as DIC	Div-XII, Bhopal

1	2	3	4	5	6	7
10.	Sh. Karunendra Soni, AEE	—	08.06.2009	07.06.2010	Already Pmt. as DIC	CHQ, Faridabad
11.	Sh. K. K. Phai, AEE	—	21.05.2009	20.05.2010	Already Pmt. as DIC	Div-X, Bhubaneswar
12.	Sh. V. R. Dahiya, AEE	—	20.05.2009	19.05.2010	Already Pmt. as JE	Div-I, Ahmedabad
13.	Sh. S. N. Singh, AEE	—	21.05.2009	20.05.2010	Already Pmt. as DIC	Div-III, Varanasi
14.	Sh. S. K. Meena, AEE	—	20.01.2010	19.01.2011	Already Pmt. as JE	Div-XI, Jodhpur
15.	Sh. S. C. Prasad, AEE	—	08.02.2010	07.02.2011	Already Pmt. as DIC	Div-VI, Nagpur
16.	Sh. H. K. Behera, AEE	—	08.02.2010	07.02.2011	Already Pmt. as DIC	Div-VII, Guwahati
17.	Sh. Amit Lal, AEE	—	05.02.2010	04.02.2011	Already Pmt. as DIC	Div-V, Ranchi
18.	Sh. D. Obulesu, AEE	—	15.02.2010	14.02.2011	Already Pmt. as DIC	Div-X, Bhubaneswar
19.	Sh. A. K. Dash, AEE	—	16.02.2010	15.02.2011	Already Pmt. as DIC	Div-XV, Kolkatta
20.	Sh. G. S. Senapati, AEE	—	08.02.2010	07.02.2011	Already Pmt. as DIC	Div-VIII, Jammu

SUNIL KUMAR  
Director (Admn.)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. K. G. M. Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 28th February 2013

No. 560(5)/032733—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K. G. M. Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

New Delhi, the 7th March 2013

No. RoC/Delhi/560(5)/FTE-2011/26408—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following

Companies have this day been struck off the Registrar and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	152166	M/s. A D Tobacco Products Private Limited
2.	080119	M/s. Ample Estates Private Limited
3.	101699	M/s. Anand Timers Private Limited
4.	176796	M/s. Apex Fab Sourcing Private Limited
5.	118117	M/s. APY Hoteliers Private Limited
6.	191716	M/s. Argentum Buses Private Limited
7.	108922	M/s. Arihant Realtors Private Limited
8.	185597	M/s. Axel Realtech Private Limited
9.	187509	M/s. Axis Clothings Private Limited
10.	147011	M/s. Betterlife Health India Private Limited
11.	143025	M/s. Bhagwati Loomtex Private Limited

1	2	3
12.	133764	M/s. Blue Empire Infotech Private Limited
13.	186936	M/s. Carona Realty Development Private Limited
14.	064683	M/s. Chitransh Software and Marketing Private Limited
15.	179751	M/s. Deepshikha Syntex Private Limited
16.	097550	M/s. Desh Raj Mahajan and Company Private Limited
17.	061712	M/s. Dicky Securities Private Limited
18.	132619	M/s. Diksha Ispat Private Limited
19.	209408	M/s. Earthwise E-Commerce and Lifestyle Solutions Private Limited
20.	187418	M/s. Ecogen Energy (Bawal) Private Limited
21.	187294	M/s. Ecogen Energy Private Limited
22.	187334	M/s. Elite Cosmetics Private Limited
23.	213282	M/s. Estonian Spirits Private Limited
24.	195182	M/s. Exhilway Financial Academy Limited
25.	189068	M/s. Exhilway Online Retail Private Limited
26.	188818	M/s. Fairfield Constructions Private Limited
27.	133341	M/s. Fellow Men Chits Private Limited
28.	121413	M/s. Gee Gee Poly Plus Private Limited
29.	234442	M/s. Gelt Exim Private Limited
30.	181623	M/s. Goldcastle Homes Private Limited
31.	105369	M/s. Gran Royal Software India Private Limited
32.	152012	M/s. Grandeur Infrastructure Private Limited
33.	022968	M/s. Gunjan Consultancy Private Limited
34.	041033	M/s. Hailstorm Technology Private Limited
35.	109654	M/s. Hassan Home Construction Private Limited
36.	040408	M/s. Helping Hand Trading Private Limited
37.	152054	M/s. HN Metal Resources Private Limited
38.	167030	M/s. HN Power Generation Private Limited
39.	150697	M/s. HPC Infrastructure Private Limited
40.	172977	M/s. HPC Power Projects Private Limited
41.	163813	M/s. HSSS Garments Private Limited
42.	127459	M/s. Imak Productions Private Limited

1	2	3
43.	209657	M/s. Indocan Property Developers Private Limited
44.	234234	M/s. Inelli Italia Holdings Private Limited
45.	100098	M/s. Infomediary India Private Limited
46.	159168	M/s. Innovative Advertising Ideas Private Limited
47.	205160	M/s. Intertek Testing and Certification Private Limited
48.	219622	M/s. Itech Softvision Private Limited
49.	030368	M/s. J S Lighting Private Limited
50.	144024	M/s. K R Chawla Advisory Private Limited
51.	058561	M/s. Kameshwari Finance and Leasing Private Limited
52.	175277	M/s. Karina Golf & Amusement Parks (Goa) Private Limited
53.	149988	M/s. Karina Human Resource Consultancy Private Limited
54.	150296	M/s. Karina Infotech Private Limited
55.	150702	M/s. Karina Power Resources Private Limited
56.	167069	M/s. Karina Productions Private Limited
57.	174337	M/s. Karina Shipping Company Private Limited
58.	187435	M/s. Kasturi Computers Private Limited
59.	176786	M/s. Korpall Constructions & Infrastructure (India) Limited
60.	039032	M/s. Lassco Tools Private Limited
61.	136052	M/s. Libcan Marketing Private Limited
62.	185594	M/s. Lighthouse Buildwell Private Limited
63.	149237	M/s. Little League Infrastructure Private Limited
64.	145394	M/s. Lotus Impo-Expo (India) Private Limited
65.	148596	M/s. M. K. Spices Private Limited
66.	217264	M/s. M2 Telecommunications Private Limited
67.	185189	M/s. Makers realtech Private Limited
68.	209592	M/s. Maple Property Developers Private Limited
69.	172976	M/s. Matina Power Projects Private Limited
70.	185421	M/s. Milton Realty Porjects Private Limited

1	2	3	1	2	3
71.	038006	M/s. Mint Life Marketing Private Limited	102.	120414	M/s. Sane Dimensions Marketing Private Limited
72.	124340	M/s. Mithila Foods Private Limited	103.	062430	M/s. Sara Chits Private Limited
73.	056612	M/s. Mithila Tree Plantations Limited	104.	186323	M/s. Sarvalochan Impex Private Limited
74.	051848	M/s. Mother Land Financial Services Limited	105.	193107	M/s. Schemati Fabrique Private Limited
75.	238180	M/s. Mustard Kitchen Hospitality Private Limited	106.	116615	M/s. SGN Distributors Private Limited
76.	046732	M/s. N. Pal Chit Fund Private Limited	107.	066230	M/s. Shanbor Planters Private Limited
77.	207973	M/s. Neil Energy Ventures Limited	108.	060162	M/s. Shivalik Laboratories Private Limited
78.	187521	M/s. Nimbus Clothings Private Limited	109.	186314	M/s. Silver Cascade Projects Private Limited
79.	119955	M/s. Noida Pumps Private Limited	110.	196572	M/s. Singhania Chit Private Limited
80.	039824	M/s. NPS Packaging Solutions Private Limited	111.	214058	M/s. SKC Realty Private Limited
81.	177193	M/s. Online Tax Mall Consulting Private Limited	112.	185187	M/s. Skyview Infratech Private Limited
82.	187392	M/s. Opti Builders Private Limited	113.	128966	M/s. Spriano Bliss Anand Instruments India Private Limited
83.	137286	M/s. Optima Webtech Private Limited	114.	157121	M/s. Square Metal and Alloys Private Limited
84.	168571	M/s. Osim Projects Private Limited	115.	196916	M/s. SS Intcon Private Limited
85.	157780	M/s. P J S Builders Private Limited	116.	039803	M/s. Sudarshan Denim Private Limited
86.	225068	M/s. P L Medical India Private Limited	117.	056163	M/s. Survin International Private Limited
87.	217610	M/s. Paradigm Exim Private Limited	118.	166379	M/s. Telecare Consumers Product Private Limited
88.	121638	M/s. PDG Exports Private Limited	119.	225423	M/s. Tirupati Wheels Private Limited
89.	035536	M/s. Pearl Limited	120.	240391	M/s. Tulip Super Mart Private Limited
90.	217947	M/s. Pekelo Granite Marmo Private Limited	121.	134502	M/s. Vaare Exim Private Limited
91.	228851	M/s. Pinnacle Aero Enterprises Private Limited	122.	066641	M/s. Vishnu Motors Private Limited
92.	134822	M/s. PMS Apparel Private Limited	123.	141465	M/s. Vitol Carbon Solutions Private Limited
93.	199035	M/s. Quick Trip Dziners Private Limited	124.	187472	M/s. Vogue Painters Private Limited
94.	075266	M/s. Radhika Smart Cards Limited	125.	026808	M/s. Westend Services Private Limited
95.	163352	M/s. Radix Global Solutions India Private Limited	126.	150623	M/s. X-Gen Power Company Private Limited
96.	177982	M/s. Ratroi Maa Trading Private Limited	127.	191493	M/s. Yatan Ayurvedics Private Limited
97.	187151	M/s. Rediffusion Fashions Private Limited	128.	146224	M/s. Yatin Chits Private Limited
98.	172978	M/s. RNV Marketing Private Limited	129.	133821	M/s. Zestha Promoters Private Limited
99.	028139	M/s. S F X. India Limited	130.	167803	M/s. Zillion Management Services Private Limited
100.	156746	M/s. S. R. Trends Private Limited			
101.	136534	M/s. Salasar Switchgears Private Limited			

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana



In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Sig Beverage Machinery and Systems (India)  
Private Limited

New Delhi-110019, the 8th March 2013

No. 560(5)/MAC/RoC/26432—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sig Beverage Machinery and Systems (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Chandigarh, the 28th February 2013

No. RoC/560(5) FTE/2012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	23092	M/s. Taneja Spinners Private Limited
2.	29131	M/s. Transworld Township Private Limited
3.	14982	M/s. Bachan Lal Foods Private Limited
4.	29132	M/s. Thames Land Developers Private Limited
5.	30948	M/s. Shubanguru Entertainment Devices Private Limited
6.	17905	M/s. Rangam Agrochem Private Limited
7.	32022	M/s. Nytp Infotech Private Limited
8.	14367	M/s. Papyrus Enterprises Private Limited
9.	32619	M/s. Kay Gee Catering & Hospitals Services Private Limited
10.	32799	M/s. Milky Atta Private Limited
11.	33687	M/s. Nagal Green Acres Private Limited
12.	35281	M/s. Novo Elixir Biotech Private Limited

RAJ SINGH  
Registrar of Companies  
Punjab & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Chandigarh, the 28th February 2013

No. TS/SM/560/2013/2732—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said Company shall be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	30676	M/s. Sequoia Laboratories Private Limited
2.	31359	M/s. City Network Gas Private Limited
3.	14764	M/s. Parteet Cycles Limited
4.	31537	M/s. Zingalala Info World Private Limited
5.	03905	M/s. Sukhna Paper Mills Limited
6.	33059	M/s. M. K. Garg Financial Managment Consultants Private Limited
7.	32427	M/s. One Two One Infotech Private Limited
8.	31526	M/s. Just Imagine Infotech Private Limited
9.	32426	M/s. Cerebrum Infotech Private Limited
10.	33005	M/s. Combermere Holiday Inns Private Limited
11.	32879	M/s. Almanac Advertisers Private Limited
12.	32170	M/s. Nectar Professional Consultants Private Limited

RAJ SINGH  
Registrar of Companies  
Punjab & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Chandigarh, the 1st March 2013

No. TS/SM/560/2013/2747—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	16899	M/s. Skyways Hire Purchase Private Limited
2.	16902	M/s. Speciality Strips Private Limited

1	2	3	1	2	3
3.	16898	M/s. J. H. Capital Services Private Limited	30.	17045	M/s. New Age Hire Purchase Private Limited
4.	16905	M/s. Star Refractories Private Limited	31.	17046	M/s. Navee Hire Purchase Private Limited
5.	16907	M/s. D. N. Finvest Private Limited	32.	17059	M/s. Anmol Cold Storage Private Limited
6.	16922	M/s. Malsian Finance Private Limited	33.	03327	M/s. Bloom Finance and Chit Fund Company Private Limited
7.	16928	M/s. K and N Garment Manufacturers Private Limited	34.	17075	M/s. Ficus Capital Services Private Limited
8.	16932	M/s. K. T. N. Builders and Developers Private Limited	35.	17077	M/s. JRG Finvest Private Limited
9.	16934	M/s. B R Y Chemicals Private Limited	36.	17086	M/s. Thakur Exim Company Private Limited
10.	16936	M/s. Best Rubbers Private Limited	37.	17096	M/s. Shiv Fun Resorts Private Limited
11.	16942	M/s. Dhuri Construction Company Private Limited	38.	17097	M/s. Sidharth Soap and Detergents Private Limited
12.	16945	M/s. Pace Management and Consultancy Services Private Limited	39.	17100	M/s. Bheem Auto Components Private Limited
13.	16948	M/s. Atam Builders Private Limited	40.	17106	M/s. Wadhawan Card Board Private Limited
14.	16957	M/s. R M T Machines Private Limited	41.	17117	M/s. Robin Machinery Linkers Private Limited
15.	16962	M/s. Concept Impex Private Limited	42.	17123	M/s. Yashu Finance and Leasing Company Private Limited
16.	16963	M/s. Keshav Surgical Cotton Private Limited	43.	17133	M/s. Barron Finance Private Limited
17.	16969	M/s. Amrit Organic Fertilisers Private Limited	44.	17145	M/s. Dhamija Finlease Private Limited
18.	16961	M/s. Susi Investments Private Limited	45.	17154	M/s. Sat Sahib Castings Private Limited
19.	16970	M/s. Ganpati Securities Private Limited	46.	17159	M/s. Sukhmani Resin and Chemicals Private Limited
20.	16974	M/s. Quantum Fincap Private Limited	47.	03347	M/s. Gulnar Fianciers and Chit Fund Private Limited
21.	16982	M/s. Vashulinga Synthetics Limited	48.	17167	M/s. Anubhav Transformers and Switches Private Limited
22.	16987	M/s. Malerkotla Agro Fules Private Limited	49.	17168	M/s. Northern Green Harvest Private Limited
23.	16994	M/s. Tradelink Airfreight Private Limited	50.	17169	M/s. Waraich Seeds Private Limited
24.	17002	M/s. Gurdudrat Finance Private Limited	51.	17176	M/s. Haryana Gases Limited
25.	17000	M/s. Mediguard Organics Private Limited	52.	17178	M/s. Dew Sanitations Private Limited
26.	17024	M/s. SJ Exports Private Limited	53.	17182	M/s. Basant Steel Appliances Private Limited
27.	17027	M/s. Collins Remedies (India) Private Limited			
28.	17029	M/s. Morning Post Publishing Limited			
29.	17038	M/s. Neelgagan Finance Private Limited			

1	2	3
54.	17186	M/s. B. S. Electromech Engineering Private Limited
55.	17188	M/s. Nagarmal Financial Services Private Limited
56.	17191	M/s. ANG Metals Private Limited
57.	17194	M/s. Karuna Exports Private Limited
58.	17204	M/s. Vividh Castings Private Limited
59.	17207	M/s. Padhanian Finance Private Limited
60.	17216	M/s. M M Hire Purchase Private Limited
61.	17222	M/s. Sehajpal Finance and Investment Limited
62.	17223	M/s. H R R Hire Purchase Private Limited
63.	17230	M/s. P. R. Housing and Developers Private Limited
64.	17237	M/s. R K D Exporters Private Limited
65.	17239	M/s. H. M. Traders Private Limited
66.	17233	M/s. Integrated Advertisers Private Limited
67.	17243	M/s. M S Finlease Private Limited
68.	17246	M/s. Mahant Fertilizers Private Limited
69.	17248	M/s. Shree Bankay Bihari Agro Mills Private Limited
70.	17242	M/s. Mohali Tools Private Limited
71.	17254	M/s. Supertech Switchgear Marketing Private Limited
72.	17265	M/s. A M Chemicals Private Limited
73.	17253	M/s. MCS Telecom Private Limited
74.	17270	M/s. Gandhi Furnitures Private Limited
75.	17276	M/s. Sachdeva Finvest Private Limited
76.	17277	M/s. Daljit Bus Service Private Limited
77.	17280	M/s. A. H. Prizm Pack Limited
78.	17283	M/s. J. V. G. Textile and Spinning Mills Limited

1	2	3
79.	17295	M/s. Frontier Worldwide Industries Private Limited
80.	17284	M/s. Sibra Educational Career Foundation Private Limited
81.	17285	M/s. Sibra Travels Private Limited
82.	17302	M/s. Aman Hosiery Works Private Limited
83.	17305	M/s. Progressive Finvest Private Limited
84.	17308	M/s. Ludhiana Financial Services Private Limited
85.	17312	M/s. Seema Finvest Private Limited
86.	17299	M/s. Rubina Papers Limited
87.	17300	M/s. Park Overseas Limited
88.	17319	M/s. Makkson Investments Private Limited
89.	17326	M/s. Pulser Trading Company Private Limited
90.	17327	M/s. Lucky Star Spinners Limited
91.	17329	M/s. City Inpex Private Limited
92.	17331	M/s. Agrani Cotton Trading Company Private Limited
93.	17332	M/s. Malwa Textiles Private Limited
94.	17346	M/s. Bombay Mix Recording Studios Private Limited
95.	17351	M/s. Dhaliwal Agro India Private Limited
96.	17356	M/s. V B Computer Enterprises Private Limited
97.	17357	M/s. Sitco Roadlines Private Limited
98.	17358	M/s. Jandiala Builders Private Limited
99.	17371	M/s. Snowwhite Textiles Private Limited
100.	17375	M/s. Baba Sri Chand Sahib Rice Mills Private Limited
101.	17382	M/s. Camelot Imports Private Limited
102.	17384	M/s. Dhandari Alloys Private Limited

1	2	3	1	2	3
103.	17388	M/s. Jaidka Exports Limited	130.	17481	M/s. Pinewood Impex Private Limited
104.	17397	M/s. C R Finvest Private Limited	131.	17490	M/s. Guru Amar Dass Milk Foods Private Limited
105.	17394	M/s. Sukhsur Educational and Management Services Private Limited	132.	17492	M/s. Suresh Properties Private Limited
106.	17403	M/s. Neeraj Hire Purchase Private Limited	133.	17501	M/s. Sai Parkash Agro Private Limited
107.	17404	M/s. Paash Hire Purchase Private Limited	134.	17511	M/s. Hellifax International Limited
108.	17405	M/s. Jahangirabad Hire Purchase Private Limited	135.	17509	M/s. U. C. Carbon Private Limited
109.	17409	M/s. Royal Consumer Services Limited	136.	17522	M/s. D L Hire Purchase Private Limited
110.	17410	M/s. Meenu Impex Private Limited	137.	17525	M/s. Indo Polyfab Limited
111.	17406	M/s. Pugmarks Impressions Private Limited	138.	17527	M/s. T. M. Securities Private Limited
112.	17414	M/s. Shikhar Enterprises India Private Limited	139.	17533	M/s. J B Garments Private Limited
113.	17416	M/s. Inder Capital Services Private Limited	140.	17534	M/s. Chief Leasing and Investment Company Private Limited
114.	17422	M/s. Royal Laboratories Private Limited	141.	17538	M/s. Ganesh Gases Private Limited
115.	17423	M/s. G P S Finlease Private Limited	142.	17549	M/s. Shivalik Sona Jewels Limited
116.	17424	M/s. K S Finvest Private Limited	143.	17550	M/s. Hargobind Financial and Investment Company Private Limited
117.	17425	M/s. G S Finvest Private Limited	144.	17560	M/s. Recherche Spice Oils Limited
118.	17426	M/s. I G S Finlease Private Limited	145.	17562	M/s. P. Aggarwal Traders Private Limited
119.	17427	M/s. I S Finvest Private Limited	146.	17571	M/s. J R D Machines Private Limited
120.	17445	M/s. Hillside Distillers Private Limited	147.	17572	M/s. Punia Papers Private Limited
121.	17442	M/s. Halfone Impressions Private Limited	148.	17576	M/s. Mek Marketing Private Limited
122.	17451	M/s. Aesthetics Overseas Private Limited	149.	17578	M/s. Achint Finance and Leasing Company Private Limited
123.	17452	M/s. Touchwood Tools Private Limited	150.	17584	M/s. Aarcee Foods Private Limited
124.	17457	M/s. B. M. Flour Mills Private Limited	151.	17588	M/s. Deol Dairy Farms Private Limited
125.	17469	M/s. Kala Coal Suppliers Private Limited	152.	17589	M/s. Aulakh Dairy Farms Private Limited
126.	17476	M/s. Parkash Hire Purchase Private Limited	153.	17591	M/s. D S Steel Enterprises Private Limited
127.	17477	M/s. Saachi Tools and Forgings Private Limited	154.	17592	M/s. Shammi Hotel and Restaurant Private Limited
128.	17484	M/s. Alawalpur Deposits and Advances Private Limited	155.	17586	M/s. Labh Tours Travels and Financiers Private Limited
129.	17485	M/s. K S Badwal Hire Purchase Private Limited	156.	17598	M/s. Savera Textiles Private Limited

1	2	3
157.	17599	M/s. Super Exim Private Limited
158.	17602	M/s. Jupiter Trading Company Private Limited
159.	17603	M/s. Shubh Labh Exim Private Limited
160.	17605	M/s. Shubh Labh Financial Services Private Limited
161.	17606	M/s. Sagar Capital Services Private Limited
162.	17611	M/s. Hickory Hotel and Resorts Limited
163.	17617	M/s. Oxford Knitwears Private Limited
164.	17628	M/s. Badwal Finance and Investments Limited
165.	17629	M/s. HSK Finance Private Limited
166.	17635	M/s. A M Exports Limited
167.	17637	M/s. Bhagwati Overseas Private Limited
168.	17640	M/s. Alto Constructions India Limited
169.	17646	M/s. West India Agro Mills Private Limited
170.	17647	M/s. Punny Steels Limited
171.	17644	M/s. A M Housing Finance Limited
172.	17649	M/s. Sandhu Credits Private Limited
173.	17652	M/s. Evergreen Papers Private Limited
174.	17653	M/s. Shree Tirath Construction Private Limited
175.	17658	M/s. Rishi Capital Services Limited
176.	17655	M/s. Horizon Computers Private Limited
177.	17662	M/s. S R D Fabrics Private Limited
178.	17663	M/s. Ambika Liaison and Consultancy House Private Limited
179.	17667	M/s. Data Motor Finance Private Limited
180.	17672	M/s. Five Star Immigration Consultants Private Limited
181.	17673	M/s. APS Communication Private Limited
182.	17686	M/s. Amritsar Finlease Private Limited
183.	17692	M/s. Amritsar Computers Private Limited
184.	17688	M/s. Toor Yarns Limited
185.	17695	M/s. M. F. Boards and Securities Limited
186.	17693	M/s. Surabhi Cassettes Private Limited

1	2	3
187.	17698	M/s. Jassu Ex Soldiers Industrial Security Services Private Limited
188.	17701	M/s. Bains Supertone Music India Private Limited
189.	17709	M/s. M. F. Financial Services Limited
190.	17721	M/s. VPM Finvest Limited
191.	17723	M/s. Osho Conveyors Private Limited
192.	12222	M/s. Harnam Builders Private Limited
193.	17730	M/s. Charismatic Packaging Private Limited
194.	17738	M/s. K. J. Marketing Private Limited
195.	17731	M/s. O Boy Foods Private Limited
196.	17734	M/s. Amrit Solar Private Limited
197.	17736	M/s. Indus Agro Farms Limited
198.	17745	M/s. Y B Finance Private Limited
199.	17746	M/s. A P G Finvest Private Limited
200.	17751	M/s. JKA Financial Services Limited
201.	17758	M/s. Akron Financial and Marketing Services Private Limited
202.	17771	M/s. Ripple Enterprises Private Limited
203.	17768	M/s. Delta Systems Engineering and Services Private Limited
204.	17774	M/s. Prashant Fincap Private Limited
205.	17776	M/s. Kay Kay Conductors Private Limited
206.	17779	M/s. Guffi Growth Finance Private Limited
207.	17782	M/s. Sahiba Finance Company Private Limited
208.	17786	M/s. Yule Fashion Private Limited
209.	17795	M/s. Sahib Fibers Private Limited
210.	17797	M/s. Bobby Brothers Impex Private Limited
211.	17798	M/s. Bandlas Finance Private Limited
212.	17800	M/s. Bel Deposits and Advances Private Limited
213.	17791	M/s. Baba Exports Private Limited
214.	17804	M/s. Medulla Computers Private Limited
215.	17808	M/s. Green Line Investment Private Limited

1	2	3	1	2	3
216.	17809	M/s. Shah Fibres Private Limited	245.	17911	M/s. G Argo Chemicals Limited
217.	17815	M/s. Rana Kunj Flour Mills Private Limited	246.	17920	M/s. Rudra Finvest Private Limited
218.	17818	M/s. Preeti Steel Balls Private Limited	247.	17923	M/s. Ajanta Advertising Services Private Limited
219.	17810	M/s. Knight Organics Private Limited	248.	17943	M/s. Youngman Leasing and Finance Private Limited
220.	17829	M/s. Grow Quick Investments Private Limited	249.	17931	M/s. International Horticulture Development Company Limited
221.	17832	M/s. Dashmesh Alloys Private Limited	250.	17950	M/s. Moon Finlease Private Limited
222.	17833	M/s. Rana Kunj Finlease Private Limited	251.	17947	M/s. Rana Mohendra Distilleries Limited
223.	17831	M/s. Lorcan Marketing Private Limited	252.	17948	M/s. Sunet Finvest Private Limited
224.	17835	M/s. Primax Chemicals Private Limited	253.	17958	M/s. Patiala Finlease Private Limited
225.	17841	M/s. Singla Medi Services Private Limited	254.	17972	M/s. Bubbles Carline Private Limited
226.	17845	M/s. Jamna Bhandari Finance Private Limited	255.	17978	M/s. Narula Restaurants Private Limited
227.	17849	M/s. Rupali Finlease Private Limited	256.	17974	M/s. Golden Building Materials Limited
228.	17850	M/s. Jatin Finvest Private Limited	257.	17975	M/s. Golden Concast Limited
229.	17852	M/s. Robot Computer Systems Private Limited	258.	17988	M/s. Tejpal and Sons Finance Private Limited
230.	17837	M/s. Divine Garments Private Limited	259.	17980	M/s. Avid Electricals Private Limited
231.	17857	M/s. Saral Finance and Leasing Company Private Limited	260.	17996	M/s. Nature Foods Private Limited
232.	17868	M/s. Sukhna Enterprises Private Limited	261.	17999	M/s. Poonam Detergents Private Limited
233.	17867	M/s. Jagsons Trading Company Private Limited	262.	18000	M/s. Alawalpur Puar Hire Purchase Private Limited
234.	17874	M/s. Uniworth Spinning Mills Private Limited	263.	18001	M/s. Crown Poly Fabricks Limited
235.	17882	M/s. Garcha and Garcha Finance Private Limited	264.	18003	M/s. Lucid Chemicals Private Limited
236.	17883	M/s. Amar Hire Purchase Private Limited	265.	18010	M/s. Jeevan Jyoti Leathers Private Limited
237.	17877	M/s. Khurana Impex Private Limited	266.	18015	M/s. Mohali Plastics Private Limited
238.	17893	M/s. Royalstar Forging Private Limited	267.	18016	M/s. Nidha Finance Hire Purchase Private Limited
239.	17895	M/s. Jagota Fibers Private Limited	268.	18020	M/s. S P Zips Private Limited
240.	17898	M/s. Vision Papers Limited	269.	18024	M/s. Bombay Overseas Cargo Carriers Private Limited
241.	17903	M/s. Rana Exim Limited	270.	18027	M/s. Rayum Investment and Leasing Private Limited
242.	17901	M/s. Sur-Sangam Cassettes Private Limited	271.	18038	M/s. DPG Share Brokers Private Limited
243.	17906	M/s. Suvidha Medicare Private Limited	272.	18042	M/s. Securex Finance and Investments Private Limited
244.	17910	M/s. Alfa Finance Private Limited			

1	2	3
273.	18056	M/s. Jagir Hire Purchase Private Limited
274.	18057	M/s. Nehshan Finance and Leasing Company Private Limited
275.	18069	M/s. Avtar Machine Tools Private Limited
276.	18051	M/s. K N B Exports Limited
277.	18088	M/s. I. B. Finvest Private Limited
278.	18090	M/s. Bhagwan Maya Feeds and Fuels Private Limited
279.	18103	M/s. Japra Steels Private Limited
280.	18115	M/s. Gugin Poultry Private Limited
281.	18128	M/s. Harkrishan Finance Private Limited
282.	18144	M/s. Zirakhpur Finvest Private Limited
283.	18156	M/s. M. K. Hire Purchase Private Limited
284.	18158	M/s. Lal Rattan Castings Private Limited
285.	18167	M/s. Oriental Finvest Limited
286.	18197	M/s. Aar Bee Cables Private Limited
287.	18199	M/s. Kohenoer Leasing and Investment Private Limited
288.	18213	M/s. Paras Finman Private Limited
289.	18221	M/s. Amarson Wool Combers Limited
290.	18229	M/s. Ultimum Finance Company Private Limited
291.	18231	M/s. MPR Hire Purchase Private Limited
292.	18233	M/s. Aeromarine Exports Private Limited
293.	18257	M/s. GTB Financial Services Private Limited
294.	18260	M/s. Monarch Sporting Goods Private Limited
295.	18261	M/s. R. B. J. Finance and Investment Private Limited
296.	18254	M/s. Vishwa Agro Resorts Private Limited
297.	18247	M/s. Shubh Karman Motor Finance Private Limited
298.	18248	M/s. Durukshaan Travels Private Limited
299.	18267	M/s. S. R. F. Hire Purchase Private Limited
300.	18263	M/s. Sonam Casting Private Limited

1	2	3
301.	18277	M/s. Sai Knit Expo Private Limited
302.	18282	M/s. Patiala Housing and Fincap Private Limited
303.	18287	M/s. Ghaseetpura Finance Private Limited
304.	18293	M/s. VKS Finlease Private Limited
305.	18296	M/s. Pawar Hire Purchase Private Limited
306.	18309	M/s. N. J. Compuwares Private Limited
307.	18310	M/s. Prestige Hire Purchase and Financiers Private Limited
308.	18313	M/s. Aakanksha Leasing and Services Private Limited
309.	18326	M/s. J. W. Exports and Marketing Private Limited
310.	18327	M/s. GHM Advertising and Leasing Private Limited
311.	18332	M/s. Mansi Foods (India) Private Limited
312.	18345	M/s. Yamuna Financial Services Private Limited
313.	18349	M/s. Kooner Leasing Private Limited
314.	18365	M/s. Balwant Packaging Private Limited
315.	18366	M/s. Krishna TV Art Creations Limited
316.	18378	M/s. Apurb Finance and Investment Company Private Limited
317.	18389	M/s. Sengar Finance Private Limited
318.	18392	M/s. Sputnik Computer Services Private Limited
319.	18395	M/s. Jagdeep Finvest Private Limited
320.	18397	M/s. Bindra Hire Purchase Private Limited
321.	18398	M/s. Megha Textiles Private Limited
322.	18399	M/s. Euro Chem Technologies Limited
323.	16670	M/s. Secure Capital Services Private Limited
324.	18420	M/s. Eminence Housing and Finance Private Limited
325.	18428	M/s. Kissan Floritech Limited
326.	18426	M/s. Oriental Telecom Private Limited

1	2	3	1	2	3
327.	18432	M/s. Fagu Poultries Private Limited	342.	18572	M/s. Isma Estate Private Limited
328.	18451	M/s. Parkash Bakers Private Limited	343.	18575	M/s. Gobind Concast Limited
329.	18459	M/s. Amsons Hire Purchase Private Limited	344.	18576	M/s. Eider Cables India Limited
330.	18462	M/s. Mesroc Security Equipments India Private Limited	345.	18583	M/s. Sidharth Finman Private Limited
331.	18470	M/s. Sarup Project and Investment Private Limited	346.	18585	M/s. On Line Fincaps Limited
332.	18472	M/s. HDH Finance and Investment Company Private Limited	347.	18592	M/s. Jiwan Jyoti Finvest Limited
333.	18471	M/s. Online Worldhotels Limited	348.	18599	M/s. Badshah Darvesh Hire Purchase Private Limited
334.	18490	M/s. Kalgidhar Real Estates and Housing Development Limited	349.	18608	M/s. P H Securities Private Limited
335.	18493	M/s. Lakshmi Strips and Finance Private Limited	350.	18610	M/s. Neelkanth Deposits and Advances Private Limited
336.	18494	M/s. N R International Petroleum Limited	351.	18615	M/s. Harsh Processors Private Limited
337.	18503	M/s. Harjas Financiers Private Limited	352.	18613	M/s. Rehal Exports Private Limited
338.	18499	M/s. Crown Cassettes Private Limited	353.	18623	M/s. Gurukirpa Chemicals Private Limited
339.	18541	M/s. Oriental Agro Plantation and Drugs India Limited	354.	18635	M/s. H D Properties Private Limited
340.	18553	M/s. Khyati Capital Services Private Limited	355.	18636	M/s. Johal Brother Hire Purchase Private Limited
341.	18554	M/s. Pushpal Finance and Investment Private Limited	356.	18644	M/s. Himson Agro Pruducts Limited
			357.	18649	M/s. Surkhab Enterprises Private Limited

RAJ SINGH  
Registrar of Companies  
Punjab & Chandigarh

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013